Place: New Delhi

Date: 13th February, 2024

India Mutual Fund

Withdrawal ('IDCW') payments.

(₹ In Million except per share data)

MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED (A Govt. of India Enterprise) Corporate & Registered Office: Mahanagar Doorsanchar Sadan,

5th Floor, 9, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 Website: www.mtnl.net.in, Phone (Off.): 011-24319020, Fax: 011-24324243, CIN: L32101DL1986G0I023501

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

		li)	S	TANDALONE	8	t):		co	NSOLIDATED		s. in Crore)
		Three M	lonths Ended		ths Ended	Year Ended	Three M	onths Ended		ths Ended	Year Ended
	Particulars	3 months ended 31/12/2023	Corresponding 3 months ended 31/12/2022 in the previous year	C. C. School Service	Year to date figures for previous period ended 31/12/2022	Previous year ended 31/03/2023	3 months ended 31/12/2023	Corresponding 3 months ended 31/12/2022 in the previous year	A. W. L. S.	Year to date figures for previous period ended 31/12/2022	Previous year ended 31/03/2023
	.1	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED
1.	Total Income from Operations	169.25	203.19	535.81	659.22	861.57	192.24	227.41	589.55	716.05	935.23
2.	Net Profit' (Loss) for the period before exceptional items & tax	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.61)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after exceptional items)	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.61)
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.11)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising net profit/ (loss) after tax and other comprehensive income after tax)	(842.92)	(776.83)	(2,488.00)	(2,161.34)	(2,915.22)	(836.92)	(772.06)	(2,487.86)	(2,158.69)	(2,915.46)
6.	Paid up Equity Share Capital	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
7.	Other Equity excluding Revaluation Reserves	(23,519.43)	(21,447.79)	(23,519.43)	(21,447.79)	(21,472.90)	(23,531.33)	(21,456.94)	(23,531.33)	(21,456.94)	(21,484.94)
8.	Securities Premium Account	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
9.	Net Worth	(22,889.43)	(20,817.79)	(22,889.43)	(20,817.79)	(20,842.90)	(22,901.33)	(20,826.94)	(22,901.33)	(20,826.94)	(20,854.94)
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	25,253.57	23,159.85	25,253.57	23,159.85	23,499.69	25,253.57	23,159.85	25,253.57	23,159.85	23,499.69
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares		9		1.	0-	. 82	-	0	_ %	
12.	Debt Equity Ratio (in times)	(1.30)	(1.37)	(1.30)	(1.37)	(1.35)	(1.30)	(1.36)	(1.30)	(1.36)	(1.35)
13.	Earnings Per Share (of Rs.10 each) for continuing and discontinued operations- (not annualised) (In Rs.)						(h. 10-11-500	0041000	A. 200-000	
=	1. Basic ;	(13.36)	(12.35)	(39.44)	(34.36)	(46.20)	(13.32)	(12.31)	(39.43)	(34.39)	(46.27)
	2. Diluted :	(13.36)	(12.35)	(39.44)	(34.36)	(46.20)	(13.32)	(12.31)	(39.43)	(34.39)	(46.27)
14.	Capital Redemption Reserve	100	9	,	1.0		19		9		1 8
15.	Debenture Redemption Reserve	1 01	8	15	1 37	1	17			3	1
16.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (in times)	0.00	(0.00)	0.00	0.01	0.02	0.01	(0.00)	0.00	0.01	0.02
17.	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (in times)	0.02	(0.01)	0.01	0.05	0.07	0.03	(0.00)	0.01	0.06	0.07

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the company at www.mtnl.net.in and on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 13.02.2024 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on the same date.

3. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the BSE & NSE and can be accessed on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

 The company has prepared these financial results in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. For and on behalf of the Board

(P K Purwar) Chairman & Managing Director DIN: 06619060

Place: New Delhi Date: 13.02.2024



NILE LIMITED An ISO 9001

47.47

47.47

39.53

39.53

27.24

27.24

16.34

16.34

Company CIN: L27029AP1984PLC004719

Regd. Office: Plot No.38 & 40, APIIC Industrial Park, Gajulamandyam (V), Renigunta (M), Tirupati Dist., A.P.- 517520 Corp. Office: Plot No.24A/A, MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034. Ph.040-23606641, Fax: 040-23606640 Email: legal@nilelimited.com; website: www.nilelimited.com;

Statement of Standalone & Consolidated Un-audited Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2023

pi	15.7								(Rs	. in Lakhs)
		STA	NDALC	NE			CON	SOLIDA	TED	
	Q	uarter Ende	ed	Nine Mon	ths Ended	Q	uarter End	ed	Nine Mon	ths Ended
Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited
Total Income from Operations (net)	25,153.82	25,071.23	21,578.43	66,350.14	58,925.60	25,153.72	25,071.16	21,577.79	66,349.96	58,924.62
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,608.40	1,103.30	667.52	3,400.96	1,914.05	1,603.18	1,098.70	656.95	3,384.23	1,892.11
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,608.40	1,103.30	667.52	3,400.96	1,914.05	1,603.18	1,098.70	656.95	3,384.23	1,892.11
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,191.94	822.46	500.94	2,526.25	1,424.87	1,186.70	817.66	490.37	2,509.30	1,402.93
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	1,191.94	822.46	500.94	2,526.25	1,424.87	1,186.70	817.66	490.37	2,509.30	1,402.93
Equity Share Capital	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19
Reserves (excluding Revaluation Reserves										

(b) Diluted (in Rs.) Notes:

(a) Basic (in Rs.)

as shown in Balance Sheet of previous year)

Earnings Per Share (of 7 10/- each)

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months Financial Results is available on the BSE Ltd. (Stock Exchange) website (www.bseindia.com), and Website of the Company (www.nilelimited.com).

16.69

84.16

2 The Consolidated Financial Results include results of wholly owned Subsidiaries "Nirmalya Extracts Private Limited" and "Nile Li-Cycle Private Limited". Both the Subsidiary Companies has not yet started its Business Operations as on Nine Months Ended 31.12.2023.

Place: Hyderabad Date: 13th February, 2024

Sd/- Rajani K Company Secretary

For Nile Limited

83.59

83.59

46.73

46.73

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414, Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015, Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982 Email Id.: investorcare@natwasons.com. Website: www.natwasons.com Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

				Co	nsolidated		
Sr.	4.20	Fo	or the quarter en	ded	For the nine m	onths ended	For the year ended
No.	Particulars	31,12,2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
	82.9/10/6 2/10s 2 2 s	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 2 3 4 5	Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period	2,566.15 2,037.02 2,067.99 1,728.69	2,664.77 2,561.47 2,608.20 2,065.64	1,811.13 727.88 727.49 554.84	7,748.37 6,967.62 7,075.61 5,453.35	12,268.61 11,639.05 11,637.81 8,701.23	13,350.36 12,435.19 12,434.35 9,258.26
6 7 8	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Other Equity Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	89,806.20 513.62 33.66 33.66	1,17,850.01 513.62 - 40.22 40.22	1,33,280.87 513.62 - 10.8 10.8	3,48,920.67 513.62 106.18 106.18	6,396.05 513.62 169.41 169.41	5,874.99 513.62 7,98,836.74 180.26 180.26

Notes: The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly and nine months financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com). (Rs. In lakhs, except per share data) Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR):

	1W 9514V 84 K19533K 3X1	100		St	andalone		
Particulars		Fo	r the quarter en	ded	For the nine m	For the year ended	
	Particulars	31,12,2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,168.74 1,116.57	2,373.84 2,322.22	534.83 558.27	5,763.11 5,578.48	10,412.48 10,335.76	11,207.12 10,911.63
	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,116.57 843.40	2,322.22 1,715.14	558.27 420.56	5,578.48 4,136.48	10,335.76 7,702.20	10,911.63 8,094.64
3	The financial result of the Company for the quarter and nine months ended on December 3	1, 2023 have b	een reviewed b	y Audit Committ	tee and approve	d by the Board	of Directors in their

respective meetings held on 13th February, 2024 and limited review of the same has been carried out by the statutory auditor of the Company, These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IndAS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other

recognized accounting practices and policies to the extent applicable. By order of the Board of Directors For Nalwa Sons Investments Limited

> Mahender Kumar Goel Whole Time Director DIN: 00041866

PGIM India Asset Management Private Limited 4th Floor, C wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

> CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446 Website: www.pgimindiamf.com

Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100

NOTICE

Notice is hereby given that PGIM India Trustees Private Limited, Trustee to PGIM India Mutual Fund, has approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the following schemes of PGIM India Mutual Fund with February 16, 2024 as the record date: -

Scheme Names	Plans / Options	Quantum of IDCW per Unit (Gross of Statutory Levy, if any)* (₹)	Face Value (₹ Per Unit)	NAV of IDCW Option as on February 12, 2024 (₹ per unit)#
PGIM India Arbitrage Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0437	10	11.0454
DOM India Ushaid Facility Freed	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.1702	10	23.2400
PGIM India Hybrid Equity Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.1856	10	25.3500
DCIM ladia Equity Soviega Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.0721	10	12.7333
PGIM India Equity Savings Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0783	10	13.8143

*Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the above-mentioned option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

IDCW will be paid to those unit holders whose names appear in the records of the Registrar as at the close of business on the record date. For units in dematerialized form, all unit holders whose names appear in the beneficiary position file downloaded from the depositories as on the record date will be entitled to receive the IDCW.

*The IDCW distribution will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

For PGIM India Asset Management Private Limited

(Investment Manager for PGIM India Mutual Fund) Place: Mumbai

Date : February 13, 2024 Authorized Signatory Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Mutual Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital

> MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

ELIXIR CAPITAL LIMITED 58, Mittal Chambers, 5th Floor, 228, Nariman Point, Mumbai - 400 021 CIN - L67190MH1994PLC083361

Extract of Standalone and Consolidated unaudited Results for the Quarter ended 31st December, 2023 **Particulars** Standalone 3 months 3 months 9 months | 9 months Year ended ended ended ended ended 31-Dec-23 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-22 31-Mar-23 (All Rs. In lakhs except EPS) UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED AUDITED Total Income from Operations 4.75 86.95 133.39 138.64 Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) 76.55 124.01 125.53 2.06 13.25 Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) 1.93 13.25 128.41 124.01 125.53 Net Profit / (Loss) for the period after tax 112.63 (after exceptional and extraordinary items) 0.26 9.95 114.16 111.17 Total comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period and after comprehensive income (net of tax) 0.26 112.63 9.95 114.16 111.17 580.32 580.32 580.32 580.32 580.32 Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year) Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares, Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized) (a) Basic 0.00 0.17 1.97 1.92 1.94

39.71

39.71

27.40

27.40

ı	(b) Diluted	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
9	Earnings Per Share after Exceptional Items (Equity shares,					
ı	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)					
ı	(a) Basic	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
	(b) Diluted	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
Sr.	Particulars	1		Consolidated	· · · · · · ·	
No.		3 months	3 months	9 months	9 months	Year
ı		ended	ended	ended	ended	ended
	(All Rs. In lakhs except EPS)	31-Dec-23 UNAUDITED	31-Dec-22 UNAUDITED	31-Dec-23 UNAUDITED	31-Dec-22 UNAUDITED	31-Mar-23 AUDITED
1	Total Income from Operations	611.91	25.16	1,766.08	485.68	450.07
2	Net Profit / (Loss)					
ı	(before tax, exceptional and extraordinary items)	410.18	(147.14)	1,150.36	(39.35)	(266.43)
3	Net Profit / (Loss) for the period					
ı	(before tax after exceptional and extraordinary items)	410.18	(147.14)	1,202.23	(39.35)	(266.43)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax					
ı	(after exceptional and extraordinary items)	318.30	(142.61)	1,032.43	(77.35)	(342.59)
5	Total comprehensive Income for the period attributable					
ı	to the owners of the company [comprising Profit for the					
ı	period and after other comprehensive income (net of tax)]	235.62	(102.95)	774.26	(47.75)	(243.65)
6	Equity Share Capital	580.32	580.32	580.32	580.32	580.32
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves					
L	as per balance sheet of previous year)					
8	Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares,					
ı	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)				(2.22)	(4.55)
ı	(a) Basic	4.06	(1.77)	13.34	(0.82)	(4.20)
	(b) Diluted	4.06	(1.77)	13.34	(0.82)	(4.20)
9	Earnings Per Share after Exceptional Items (Equity shares,					
ı	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)	4.00	/4 77\	40.04	(0.00)	(4.00)
ı	(a) Basic	4.06	(1.77)	13.34	(0.82)	(4.20)
	(b) Diluted	4.06	(1.77)	13.34	(0.82)	(4.20)

- a. The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended on 31st December, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the company's website
- The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeing held on 13th February,2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the above Standalone Financial Results pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. **FOR ELIXIR CAPITAL LIMITED**

DIPAN MEHTA Place : Mumbai Chairman Date: 13/02/2024 DIN: 00115154



SI. No.	PARTICULARS	3 months ended Dec 31, 2023 (Unaudited)	9 months ended Dec 31, 2023 (Audited)	3 months ended Dec 31, 2022 (Unaudited)
1	Revenue from operations	168.51	524.02	507.08
_		100.51	8	307.08
2	Exceptional Items	-	(3.62)	
3	Profit /(Loss) before tax for continuing operation	(9.54)	(76.27)	(78.97)
4	Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation	-	-	3.64
5	Profit /(Loss) after tax	(21.36)	(90.06)	(98.52)
6	Equity Share Capital	146.22	146.22	146.22
7	Total comprehensive income	(21.45)	(92.19)	(96.94)
8	Earnings per share (Par value of ₹ 1/- each, not annualised) (a) Basic (b) Diluted	(0.15) (0.15)	(0.62) (0.62)	(0.70) (0.70)
F	inancial Results of TAKE Solution	s Limited (St	andalone Inf	ormation)
1	Revenue from operations	-	54.21	127.50
2	Other income	7.12	8.67	12.35
3	Profit /(Loss) before tax for continuing operation	(10.72)	(23.53)	2.10
4	Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation	-	1	-
5	Profit/(Loss) after tax	(46.49)	(57.63)	0.75

The Unaudited Standalone and Consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 in respect of TAKE Solutions Limited ('the Company') have been reviewed and recommeded by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on February 13, 2024. The above results have been reviewed by the Statutory auditors of the Company.

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 and SEBI Circular dated July 05, 2016. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Statements are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's

website www takesolutions com-For and on Behalf of the Board of Directors

Place: Chennai Srinivasan H.R. Date : Feb 13, 2024 Chairman for the meeting dated Feb 13, 2024



financialexp.epapr.in

Note:

MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED (A Govt. of India Enterprise)

Corporate & Registered Office: Mahanagar Doorsanchar Sadan, 5th Floor, 9, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 Website: www.mtnl.net.in, Phone (Off.): 011-24319020, Fax: 011-24324243, CIN: L32101DL1986G0I023501

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

1 3			2	TANDALONE				co	NSOLIDATED		s. in Crore)
		Three M	Ionths Ended		ths Ended	Year Ended	Three M	onths Ended		ths Ended	Year Ended
	Particulars	3 months ended 31/12/2023	Corresponding 3 months ended 31/12/2022 in the previous year	Year to date figures for Current	Year to date figures for previous period ended 31/12/2022	Previous year ended 31/03/2023	3 months ended 31/12/2023	Corresponding 3 months ended 31/12/2022 in the previous year	Year to date figures for Current period ended 31/12/2023	Year to date figures for previous	Previous year ended 31/03/2023
		UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED
1.	Total Income from Operations	169.25	203.19	535.81	659.22	861.57	192.24	227.41	589.55	716.05	935.23
2.	Net Profit/ (Loss) for the period before exceptional items & tax	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.61)
3.	Net Profit (Loss) for the period before Tax (after exceptional items)	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.61)
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166,56)	(2,915.11)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising net profit/ (loss) after tax and other comprehensive income after tax)	(842.92)	(776.83)	(2,488.00)	(2,161.34)	(2,915.22)	(836.92)	(772.06)	(2,487.86)	(2,158.69)	(2,915.46)
6.	Paid up Equity Share Capital	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
7.	Other Equity excluding Revaluation Reserves	(23,519.43)	(21,447.79)	(23,519.43)	(21,447.79)	(21,472.90)	(23,531.33)	(21,456.94)	(23,531.33)	(21,456.94)	(21,484.94)
8.	Securities Premium Account	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
9.	Net Worth	(22,889.43)	(20,817.79)	(22,889.43)	(20,817.79)	(20,842.90)	(22,901.33)	(20,826.94)	(22,901.33)	(20,826.94)	(20,854.94)
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	25,253.57	23,159.85	25,253.57	23,159.85	23,499.69	25,253.57	23,159.85	25,253.57	23,159.85	23,499.69
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares		- 8		18		()		19		
12.	Debt Equity Ratio (in times)	(1.30)	(1.37)	(1.30)	(1.37)	(1.35)	(1.30)	(1.36)	(1.30)	(1.36)	(1.35)
13.	Earnings Per Share (of Rs.10 each) for continuing and discontinued operations- (not annualised) (In Rs.)		123 013-1	b	93 /63	M 900 U	0.00			13 - 13 - 13	2.0
	1. Basic :	(13.36)	(12.35)	(39.44)	(34.36)	(46.20)	(13.32)	(12.31)	(39.43)	(34.39)	(46.27)
	2. Diluted :	(13.36)	(12.35)	(39.44)	(34.36)	(46.20)	(13.32)	(12.31)	(39.43)	(34.39)	(46.27)
14.	Capital Redemption Reserve	-	7/	3		8 95		-	- 25	1	9
15.	Debenture Redemption Reserve		30	. 3	18	0 92	-	72	82	7/2	-
16.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (in times)	0.00	(0.00)	0.00	0.01	0.02	0.01	(0.00)	0.00	0.01	0.02
17.	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (in times)	0.02	(0.01)	0.01	0.05	0.07	0.03	(0.00)	0.01	0.06	0.07

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the company at www.mtnl.net.in and on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 13.02.2024 and approved by the Board of Directors of the Company at their

3. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made

to the BSE & NSE and can be accessed on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

4. The company has prepared these financial results in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. For and on behalf of the Board

(P K Purwar) Chairman & Managing Director DIN: 06619060

Place: New Delhi Date: 13.02.2024

LIMITE An ISO 9001 Company

CIN: L27029AP1984PLC004719

Regd. Office: Plot No.38 & 40, APIIC Industrial Park, Gajulamandyam (V), Renigunta (M), Tirupati Dist., A.P.- 517520 Corp. Office: Plot No.24A/A, MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034. Ph.040-23606641, Fax: 040-23606640 Email: legal@nilelimited.com; website: www.nilelimited.com;

Statement of Standalone & Consolidated Un-audited Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2023

2	0				0				(Rs	. in Lakhs
3		STA	NDALC	NE	ŝ		CON	SOLIDA	TED	- 8
	Qı	uarter Ende	ed	Nine Mon	ths Ended	Q	uarter Ende	ed	Nine Mon	ths Ended
Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited
Total Income from Operations (net)	25,153.82	25,071.23	21,578.43	66,350.14	58,925.60	25,153.72	25,071.16	21,577.79	66,349.96	58,924.62
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,608.40	1,103.30	667.52	3,400.96	1,914.05	1,603.18	1,098.70	656.95	3,384.23	1,892.11
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,608.40	1,103.30	667.52	3,400.96	1,914.05	1,603.18	1,098.70	656.95	3,384.23	1,892.11
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,191.94	822.46	500.94	2,526.25	1,424.87	1,186.70	817.66	490.37	2,509.30	1,402.93
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	1,191.94	822.46	500.94	2,526.25	1,424.87	1,186.70	817.66	490.37	2,509.30	1,402.93
Equity Share Capital	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in Balance Sheet of previous year)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (a) Basic (in Rs.) (b) Diluted (in Rs.)	39.71 39.71	27.40 27.40	16.69 16.69							

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months Financial Results is available on the BSE Ltd. (Stock Exchange) website (www.bseindia.com), and Website of the Company (www.nilelimited.com).

2. The Consolidated Financial Results include results of wholly owned Subsidiaries "Nirmalya Extracts Private Limited" and "Nile Li-Cycle Private Limited". Both the Subsidiary Companies has not yet started its Business Operations as on Nine Months Ended 31.12.2023.

Place: Hyderabad Date: 13th February, 2024

Place : Mumbai

parea n 13/02/2024p.epapr.in

For Nile Limited Sd/- Rajani K Company Secretary

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414, Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015, Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982, Email Id.: investorcare@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 (Rs. In lakhs, except per share data)

				Co	nsolidated		Xeedin 50
Sr.	B. 00 L	Fo	r the quarter en	ded	For the nine m	onths ended	For the year ended
No.	Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
5100	Marie 200 200 200 200	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 2 3 4 5 6 7	Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Other Equity	2,566.15 2,037.02 2,067.99 1,728.69 89,806.20 513.62	2,664.77 2,561.47 2,608.20 2,065.64 1,17,850.01 513.62	1,811.13 727.88 727.49 554.84 1,33,280.87 513.62	7,748.37 6,967.62 7,075.61 5,453.35 3,48,920.67 513.62	12,268.61 11,639.05 11,637.81 8,701.23 6,396.05 513.62	13,350.36 12,435.19 12,434.35 9,258.26 5,874.99 513.62 7,98,836.74
8 Note	Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	33.66 33.66	40.22 40.22	10.8 10.8	106.18 106.18	169.41 169.41	180.26 180.26

The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly and nine months financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com). (Rs. In lakhs, except per share data) Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR):

Standalone For the quarter ended For the nine months ended For the year ended **Particulars** 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 1,168.74 2,373.84 534.83 5,763.11 10,412.48 11,207.12 Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 1,116.57 558.27 5,578.48 10,335.76 10,911.63 2,322.22 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1,116.57 2,322.22 558.27 5,578.48 10,335.76 10,911.63 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 843.40 1,715.14 420.56 4,136.48 7,702.20 8.094.64 The financial result of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2023 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 13th February, 2024 and limited review of the same has been carried out by the statutory auditor of the Company

These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. By order of the Board of Directors

For Nalwa Sons Investments Limited Mahender Kumar Goel

Place: New Delhi Whole Time Director Date: 13th February, 2024 DIN: 00041866



PGIM India Asset Management Private Limited

4th Floor, C wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100

Quantum of

CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446

Website: www.pgimindiamf.com

NAV of IDCW

NOTICE

Notice is hereby given that PGIM India Trustees Private Limited, Trustee to PGIM India Mutual Fund, has approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the following schemes of PGIM India Mutual Fund with February 16, 2024 as the record date: -

Scheme Names	Plans / Options	IDCW per Unit (Gross of Statutory Levy, if any)* (₹)	Face Value (₹ Per Unit)	Option as on February 12, 2024 (₹ per unit)#
PGIM India Arbitrage Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0437	10	11.0454
DCIM India Unhaid Equity Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.1702	10	23.2400
PGIM India Hybrid Equity Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.1856	10	25.3500
PGIM India Equity Savings Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.0721	10	12.7333
FGIN IIIdia Equity Savings Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0783	10	13.8143

*Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the above-mentioned option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

IDCW will be paid to those unit holders whose names appear in the records of the Registrar as at the close of business on the record date. For units in dematerialized form, all unit holders whose names appear in the beneficiary position file downloaded from the depositories as on the record date will be entitled to receive the IDCW.

*The IDCW distribution will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

> For PGIM India Asset Management Private Limited (Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Place: Mumbai **Authorized Signatory** Date: February 13, 2024

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Mutual Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') payments.

> MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

ELIXIR CAPITAL LIMITED

58, Mittal Chambers, 5th Floor, 228, Nariman Point, Mumbai - 400 021 CIN - L67190MH1994PLC083361

Extract of Standalone and Consolidated unaudited Results for the Quarter ended 31st December, 2023 **Particulars** Standalone

No.	(All Rs. In lakhs except EPS)	3 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED	9 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED	Year ended 31-Mar-23 AUDITED
1 2	Total Income from Operations	4.75	16.13	86.95	133.39	138.64
3	Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period	2.06	13.25	76.55	124.01	125.53
4	(before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	1.93	13.25	128.41	124.01	125.53
5	(after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period and	0.26	9.95	114.16	111.17	112.63
6 7 8	after comprehensive income (net of tax) Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year) Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares,	0.26 580.32	9.95 580.32	114.16 580.32	111.17 580.32	112.63 580.32
9	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized) (a) Basic (b) Diluted Earnings Per Share after Exceptional Items (Equity shares, Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)	0.00 0.00	0.17 0.17	1.97 1.97	1.92 1.92	1.94 1.94
	(a) Basic (b) Diluted	0.00 0.00	0.17 0.17	1.97 1.97	1.92 1.92	1.94 1.94
	A					
Sr.	Particulars	e		Consolidated	10 Y	
Sr. No.	Particulars (All Rs. In lakhs except EPS)	3 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED	3 months ended 31-Dec-22	9 months ended 31-Dec-23	9 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED	Year ended 31-Mar-23 AUDITED
No.	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations	ended	3 months ended	9 months ended	ended	ended
No. 1 2	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items)	ended 31-Dec-23 UNAUDITED	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED	ended 31-Dec-22 UNAUDITED	ended 31-Mar-23 AUDITED
No.	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43)
No. 1 2	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable to the owners of the company [comprising Profit for the	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18 318.30	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14) (142.61)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35) (77.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43) (342.59)
No. 1 2 3	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable to the owners of the company [comprising Profit for the period and after other comprehensive income (net of tax)] Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year) Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares,	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18 318.30 235.62 580.32	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43)
1 2 3 4 5 6 7	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable to the owners of the company [comprising Profit for the period and after other comprehensive income (net of tax)] Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year)	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18 318.30 235.62 580.32	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14) (142.61)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23 1,032.43	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35) (77.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43) (342.59) (243.65)

. The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended on 31st December, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Regulrements) Regulations, 2015. The full format of the above Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the company's website

DIPAN MEHTA

DIN: 00115154

Chairman

The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeing held on 13th February, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the above Standalone Financial Results pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. **FOR ELIXIR CAPITAL LIMITED**

TAKE SOLUTIONS LTD. Regd. Office: No.56, Ragas Building, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai-600 004 Email: secretarial@takesolutions.com, Website: www.takesolutions.com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023

CIN: L63090TN2000PLC046338

SI. No.	PARTICULARS	3 months ended Dec 31, 2023	9 months ended Dec 31, 2023	3 months ended Dec 31, 2022
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1	Revenue from operations	168.51	524.02	507.08
2	Exceptional Items	-	(3.62)	
3	Profit /(Loss) before tax for continuing operation	(9.54)	(76.27)	(78.97
4	Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation	-		3.64
5	Profit /(Loss) after tax	(21.36)	(90.06)	(98.52
6	Equity Share Capital	146.22	146.22	146.22
7	Total comprehensive income	(21.45)	(92.19)	(96.94
8	Earnings per share (Par value of ₹ 1/- each, not annualised) (a) Basic (b) Diluted	(0.15) (0.15)	(0.62) (0.62)	(0.70 (0.70
F	inancial Results of TAKE Solution	s Limited (St	andalone Inf	ormation)
1	Revenue from operations	-	54.21	127.50
2	Other income	7.12	8.67	12.3
3	Profit /(Loss) before tax for continuing operation	(10.72)	(23.53)	2.10
4	Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation			
5	Profit/(Loss) after tax	(46.49)	(57.63)	0.7

The Unaudited Standalone and Consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 in respect of TAKE Solutions Limited ('the Company') have been reviewed and recommeded by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on February 13, 2024. The above results have been

reviewed by the Statutory auditors of the Company. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBÌ Circular dated July 05, 2016.

websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.takesolutions.com For and on Behalf of the Board of Directors

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format

Place: Chennai Srinivasan H.R. Date : Feb 13, 2024



MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED

(A Govt. of India Enterprise) Corporate & Registered Office: Mahanagar Doorsanchar Sadan, 5th Floor, 9, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 Website: www.mtnl.net.in, Phone (Off.): 011-24319020, Fax: 011-24324243, CIN: L32101DL1986G0I023501

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

			S	TANDALONE				co	NSOLIDATED		s. in Crore)
		Three M	onths Ended		ths Ended	Year Ended	Three M	onths Ended		ths Ended	Year Ended
	Particulars	3 months ended 31/12/2023	Corresponding 3 months ended 31/12/2022 in the previous year		Year to date figures for previous period ended 31/12/2022	Previous year ended 31/03/2023	3 months ended 31/12/2023	Corresponding 3 months ended 31/12/2022 in the previous year		Year to date figures for previous period ended 31/12/2022	Previous year ended 31/03/2023
		UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED
1.	Total Income from Operations	169.25	203.19	535.81	659.22	861.57	192.24	227.41	589.55	716.05	935.23
2.	Net Profit/ (Loss) for the period before exceptional items & tax	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.61)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after exceptional items)	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.61)
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax	(841,79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.11)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising net profit/ (loss) after tax and other comprehensive income after tax)	(842.92)	(776.83)	(2,488.00)	(2,161.34)	(2,915.22)	(836.92)	(772.06)	(2,487.86)	(2,158.69)	(2,915.46)
6.	Paid up Equity Share Capital	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
7.	Other Equity excluding Revaluation Reserves	(23,519.43)	(21,447.79)	(23,519.43)	(21,447.79)	(21,472.90)	(23,531.33)	(21,456.94)	(23,531.33)	(21,456.94)	(21,484.94)
8.	Securities Premium Account	665.00	665.00	665,00	665.00	665.00	665,00	665,00	665.00	665.00	665.00
9.	Net Worth	(22,889.43)	(20,817.79)	(22,889.43)	(20,817.79)	(20,842.90)	(22,901.33)	(20,826.94)	(22,901.33)	(20,826.94)	(20,854.94)
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	25,253.57	23,159.85	25,253.57	23,159.85	23,499.69	25,253.57	23,159.85	25,253.57	23,159.85	23,499.69
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	*	2	-			84	5.	3	
12.	Debt Equity Ratio (in times)	(1.30)	(1.37)	(1.30)	(1.37)	(1.35)	(1.30)	(1.36)	(1.30)	(1.36)	(1.35)
13.	Earnings Per Share (of Rs.10 each) for continuing and discontinued operations- (not annualised) (In Rs.)										
	1. Basic :	(13.36)	(12.35)	(39.44)	(34.36)	(46.20)	(13.32)	(12.31)	(39.43)	(34.39)	(46.27)
	2. Diluted :	(13.36)	(12.35)	(39.44)	(34.36)	(46.20)	(13.32)	(12.31)	(39.43)	(34.39)	(46.27)
14.	Capital Redemption Reserve		5	1	10	6 55	3 33		87	85	
15.	Debenture Redemption Reserve	- 3	3.	- 8	12	102	-	172	92	7/2	
16.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (in times)	0.00	(0.00)	0.00	0.01	0.02	0.01	(0.00)	0.00	0.01	0.02
17.	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (in times)	0.02	(0.01)	0.01	0.05	0.07	0.03	(0.00)	0.01	0.06	0.07

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the company at www.mtnl.net.in and on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 13.02.2024 and approved by the Board of Directors of the Company at their

3. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the BSE & NSE and can be accessed on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com

4. The company has prepared these financial results in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 prescribed under Section 133 of the

Companies Act, 2013. For and on behalf of the Board

> (P K Purwar) Chairman & Managing Director DIN: 06619060

> > An ISO 9001 Company

Place: New Delhi Date: 13.02.2024

CIN: L27029AP1984PLC004719

Regd. Office: Plot No.38 & 40, APIIC Industrial Park, Gajulamandyam (V), Renigunta (M), Tirupati Dist., A.P.- 517520 Corp. Office: Plot No.24A/A, MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034. Ph.040-23606641, Fax: 040-23606640 Email: legal@nilelimited.com; website: www.nilelimited.com;

8		STA	NDALO	NE			CON	SOLIDA	TED		
	Quarter Ended			Nine Mont	30		uarter Ende	20 00		Nine Months Ende	
Particulars	1	0.0	- 1	2.0	3				31.12.2023		
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audi	
Total Income from Operations (net)	25,153.82	25,071.23	21,578.43	66,350.14	58,925.60	25,153.72	25,071.16	21,577.79	66,349.96	58,924.	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,608.40	1,103.30	667.52	3,400.96	1,914.05	1,603.18	1,098.70	656.95	3,384.23	1,892	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,608.40	1,103.30	667.52	3,400.96	1,914.05	1,603.18	1,098.70	656.95	3,384.23	1,892	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,191.94	822.46	500.94	2,526.25	1,424.87	1,186.70	817.66	490.37	2,509.30	1,402.	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	1,191.94	822.46	500.94	2,526.25	1,424.87	1,186.70	817.66	490.37	2,509.30	1,402.	
Equity Share Capital	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.	
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in Balance Sheet of previous year)	NA	NA	NA	NA	. NA	NA	NA	NA	NA		
arnings Per Share (of ₹ 10/- each)	39.71	27.40	16.69	84.16	47.47	39.53	27.24	16.34	83.59	46	

Notes:

(b) Diluted (in Rs.)

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months Financial Results is available on the BSE Ltd. (Stock Exchange) website (www.bseindia.com), and Website of the Company (www.nilelimited.com).

16.69

84.16

47.47

39.53

27.24

16.34

2. The Consolidated Financial Results include results of wholly owned Subsidiaries "Nirmalya Extracts Private Limited" and "Nile Li-Cycle Private Limited". Both the Subsidiary Companies has not yet started its Business Operations as on Nine Months Ended 31.12.2023.

Place: Hyderabad Date: 13th February, 2024

For Nile Limited Sd/- Rajani K Company Secretary

83.59

46.73

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414, Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015, Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982. Email Id.: investorcare@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

				Co	nsolidated		0.00
Sr.		Fo	r the quarter en	ded	For the nine m	For the year ender	
No.	Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31,12.2023	31.12.2022	31.03.2023
	NSV-7110 996 90	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 2 3 4 5	Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period	2,566.15 2,037.02 2,067.99 1,728.69	2,664.77 2,561.47 2,608.20 2,065.64	1,811.13 727.88 727.49 554.84	7,748.37 6,967.62 7,075.61 5,453.35	12,268.61 11,639.05 11,637.81 8,701.23	13,350.36 12,435.19 12,434.35 9,258.26
6 7 8	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Other Equity Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) -	89,806.20 513.62	1,17,850.01 513.62	1,33,280.87 513.62	3,48,920.67 513.62	6,396.05 513.62	5,874.99 513.62 7,98,836.74
	Basic: Diluted:	33.66 33.66	40.22 40.22	10.8 10.8	106.18 106.18	169.41 169.41	180.26 180.26

The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly and nine months financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com). (Rs. In lakhs, except per share data) Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR):

		2.5		St	andalone	-	Υ.
	Providence	Fo	r the quarter en	ded	For the nine m	onths ended	For the year ended
	Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	Total income from operations	1,168.74	2,373.84	534.83	5,763.11	10,412.48	11,207.12
	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,116.57	2,322.22	558.27	5,578.48	10,335.76	10,911.63
	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,116.57	2,322.22	558.27	5,578.48	10,335.76	10,911.63
	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	843.40	1,715.14	420.56	4,136.48	7,702.20	8,094.64
3	The financial result of the Company for the quarter and nine months ended on December 3 respective meetings held on 13th February, 2024 and limited review of the same has been ca					d by the Board	of Directors in their

These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

By order of the Board of Directors For Nalwa Sons Investments Limited Mahender Kumar Goel

Whole Time Director

DIN: 00041866

PGIM

India Mutual Fund

Place: New Delhi

Date: 13th February, 2024

PGIM India Asset Management Private Limited

4th Floor, C wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100

CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446

Website: www.pgimindiamf.com

NOTICE

Notice is hereby given that PGIM India Trustees Private Limited, Trustee to PGIM India Mutual Fund, has approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the following schemes of PGIM India Mutual Fund with February 16, 2024 as the record date: -

Scheme Names	Plans / Options	Quantum of IDCW per Unit (Gross of Statutory Levy, if any)* (₹)	Face Value (₹ Per Unit)	NAV of IDCW Option as on February 12, 2024 (₹ per unit)#
PGIM India Arbitrage Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0437	10	11.0454
DOIN I - II	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.1702	10	23.2400
PGIM India Hybrid Equity Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.1856	10	25.3500
DOM India Fruit Conince Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.0721	10	12.7333
PGIM India Equity Savings Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0783	10	13.8143

*Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the above-mentioned option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

IDCW will be paid to those unit holders whose names appear in the records of the Registrar as at the close of business on the record date. For units in dematerialized form, all unit holders whose names appear in the beneficiary position file downloaded from the depositories as on the record date will be entitled to receive the IDCW.

*The IDCW distribution will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

> For PGIM India Asset Management Private Limited (Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: February 13, 2024 Authorized Signatory

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Mutual Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') payments.

> MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

ELIXIR CAPITAL LIMITED 58, Mittal Chambers, 5th Floor, 228, Nariman Point, Mumbai - 400 021

CIN - L67190MH1994PLC083361 Extract of Standalone and Consolidated unaudited Results for the Quarter ended 31st December, 2023

39.71

27.40

Particulars Standalone 9 months 3 months 3 months 9 months ended ended ended ended ended 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-22 31-Mar-23 31-Dec-23 (All Rs. In lakhs except EPS) AUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED 4.75 16.13 86.95 133.39 138.64 Total Income from Operations Net Profit / (Loss) 125.53 (before tax, exceptional and extraordinary items) 2.06 13.25 76.55 124.01 Net Profit / (Loss) for the period 13.25 124.01 125.53 (before tax after exceptional and extraordinary items) 1.93 128.41 Net Profit / (Loss) for the period after tax 112.63 0.26 9.95 114.16 111.17 (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period and after comprehensive income (net of tax) 0.26 9.95 114.16 111.17 112.63 580.32 580.32 580.32 580.32 580.32 Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year) Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares, Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized) 0.00 (a) Basic 1.92 1.94

ı	(b) Diluted	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
9	Earnings Per Share after Exceptional Items (Equity shares,					
ı	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)					
ı	(a) Basic	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
	(b) Diluted	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
Sr.	Particulars	135 770	CV V	Consolidated	19 9	
No.		3 months	3 months	9 months	9 months	Year
ı		ended	ended	ended	ended	ended
ı	(All Rs. In lakhs except EPS)	31-Dec-23 UNAUDITED	31-Dec-22 UNAUDITED	31-Dec-23 UNAUDITED	31-Dec-22 UNAUDITED	31-Mar-23 AUDITED
_		. T	100		-	
1 2	Total Income from Operations	611.91	25.16	1,766.08	485.68	450.07
-	Net Profit / (Loss)	410.18	(1.47.1.4)	1,150.36	(39.35)	(266.43)
3	(before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period	410.10	(147.14)	1,150.50	(39.33)	(200.43)
ľ	(before tax after exceptional and extraordinary items)	410.18	(147.14)	1,202.23	(39.35)	(266.43)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	410.10	(147.14)	1,202.20	(00.00)	(200.40)
ı	(after exceptional and extraordinary items)	318.30	(142.61)	1,032.43	(77.35)	(342.59)
5	Total comprehensive Income for the period attributable		(* .=. : ,)	.,	(******)	(= :=:=/
ı	to the owners of the company [comprising Profit for the					
ı	period and after other comprehensive income (net of tax)]	235.62	(102.95)	774.26	(47.75)	(243.65)
6	Equity Share Capital	580.32	580.32	580.32	580.32	580.32
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves					
ı	as per balance sheet of previous year)					
8	Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares,					
ı	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)		(, ==)		(0.00)	(4.00)
ı	(a) Basic	4.06	(1.77)	13.34	(0.82)	(4.20)
	(b) Diluted	4.06	(1.77)	13.34	(0.82)	(4.20)
9	Earnings Per Share after Exceptional Items (Equity shares,					
l	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)	4.06	(4.77)	13.34	(0.00)	(4.00)
1	(a) Basic (b) Diluted	4.06	(1.77) (1.77)	13.34	(0.82) (0.82)	(4.20) (4.20)
L.	` '	4.00	(1.77)	13.34	(0.02)	(4.20)
Not	e:					

The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended on 31st December, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Regulrements) Regulations, 2015. The full format of the above Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the company's website

The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeing held on 13th February, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the above Standalone Financial Results pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

FOR ELIXIR CAPITAL LIMITED **DIPAN MEHTA** Chairman DIN: 00115154



TAKE SOLUTIONS LTD. Regd. Office: No.56, Ragas Building, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai-600 004 Email: secretarial@takesolutions.com. Website: www.takesolutions.com CIN: L63090TN2000PLC046338

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023

SI. No.	PARTICULARS	3 months ended Dec 31, 2023	9 months ended Dec 31, 2023	3 months ended Dec 31, 2022
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1	Revenue from operations	168.51	524.02	507.08
2	Exceptional Items	e 5	(3.62)	5
3	Profit /(Loss) before tax for continuing operation	(9.54)	(76.27)	(78.97)
4	Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation	-	-	3.64
5	Profit /(Loss) after tax	(21.36)	(90.06)	(98.52)
6	Equity Share Capital	146.22	146.22	146.22
7	Total comprehensive income	(21.45)	(92.19)	(96.94)
8	Earnings per share (Par value of ₹ 1/- each, not annualised) (a) Basic (b) Diluted	(0.15) (0.15)	(0.62) (0.62)	(0.70) (0.70)
F	inancial Results of TAKE Solution	s Limited (St	andalone Inf	ormation)
1	Revenue from operations	-	54.21	127.50
2	Other income	7.12	8.67	12.35
3	Profit /(Loss) before tax for continuing operation	(10.72)	(23.53)	2.10
4	Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation	-	-	
5	Profit/(Loss) after tax	(46.49)	(57.63)	0.75

Limited ('the Company') have been reviewed and recommeded by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on February 13, 2024. The above results have been reviewed by the Statutory auditors of the Company. These financial results have been prepared in accordance with Indian

Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular dated July 05, 2016. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Statements are available on the Stock Exchange

website www takesolutions com


Place: Chennai

Date: Feb 13, 2024

websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's

For and on Behalf of the Board of Directors

Srinivasan H.R. Chairman for the meeting dated Feb 13, 2024



Date: 13/02/2024 financiale r.in

Place : Mumbai

MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED

(A Govt. of India Enterprise) Corporate & Registered Office: Mahanagar Doorsanchar Sadan, 5th Floor, 9, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

Website: www.mtnl.net.in, Phone (Off.) : 011-24319020, Fax: 011-24324243, CIN : L32101DL1986G0I023501 EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

			S	TANDALONE				CO	NSOLIDATED		
	j j	Three M	onths Ended	Nine Mon	ths Ended	Year Ended	Three M	onths Ended	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
	Particulars	3 months ended 31/12/2023	Corresponding 3 months ended 31/12/2022 in the previous year	Year to date figures for Current period ended 31/12/2023	Year to date figures for previous period ended 31/12/2022	Previous year ended 31/03/2023	3 months ended 31/12/2023	Corresponding 3 months ended 31/12/2022 in the previous year		Year to date figures for previous period ended 31/12/2022	Previous year ended 31/03/2023
		UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED
1.	Total Income from Operations	169.25	203.19	535.81	659.22	861.57	192.24	227.41	589.55	716.05	935.23
2.	Net Profit/ (Loss) for the period before exceptional items & tax	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.61)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after exceptional items)	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.61)
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910,74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.11)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising net profit/ (loss) after tax and other comprehensive income after tax)	(842.92)	(776.83)	(2,488.00)	(2,161.34)	(2,915.22)	(836.92)	(772.06)	(2,487.86)	(2,158.69)	(2,915.46)
6.	Paid up Equity Share Capital	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
7.	Other Equity excluding Revaluation Reserves	(23,519.43)	(21,447.79)	(23,519.43)	(21,447.79)	(21,472.90)	(23,531.33)	(21,456.94)	(23,531.33)	(21,456.94)	(21,484.94)
8.	Securities Premium Account	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
9.	Net Worth	(22,889.43)	(20,817.79)	(22,889.43)	(20,817.79)	(20,842.90)	(22,901.33)	(20,826.94)	(22,901.33)	(20,826.94)	(20,854.94)
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	25,253.57	23,159.85	25,253.57	23,159.85	23,499.69	25,253.57	23,159.85	25,253.57	23,159.85	23,499.69
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	1 2	-	8 .						- 2	
12.	Debt Equity Ratio (in times)	(1.30)	(1.37)	(1.30)	(1.37)	(1.35)	(1.30)	(1.36)	(1.30)	(1.36)	(1.35)
13.	Earnings Per Share (of Rs.10 each) for continuing and discontinued operations- (not annualised) (In Rs.)							20.000000000000000000000000000000000000		4000000000	
	1. Basic :	(13.36)	(12.35)	(39.44)	(34.36)	(46.20)	(13.32)	(12.31)	(39.43)	(34.39)	(46.27)
	2. Diluted :	(13.36)	(12.35)	(39.44)	(34.36)	(46.20)	(13.32)	(12.31)	(39.43)	(34.39)	(46.27)
14.	Capital Redemption Reserve	8	639	85	S	1 2	i si	(a)	8 8	3	
15.	Debenture Redemption Reserve	1 3		3 8	-		3			- 1	
16.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (in times)	0.00	(0.00)	0.00	0.01	0.02	0.01	(0.00)	0.00	0.01	0.02
17.	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (in times)	0.02	(0.01)	0.01	0.05	0.07	0.03	(0.00)	0.01	0.06	0.07

Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the company at www.mtnl.net.in and on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com. 2. The above results have been reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 13.02.2024 and approved by the Board of Directors of the Company at their

meeting held on the same date. 3. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made

to the BSE & NSE and can be accessed on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and

The company has prepared these financial results in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

For and on behalf of the Board

For and on behalf of the Board

Place: New Delhi Date: 13.02.2024

(P K Purwar) Chairman & Managing Director DIN: 06619060



LIMITED

An ISO 9001 Company

Regd. Office: Plot No.38 & 40, APIIC Industrial Park, Gajulamandyam (V), Renigunta (M), Tirupati Dist., A.P.- 517520 Corp. Office: Plot No.24A/A, MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034. Ph.040-23606641, Fax: 040-23606640 Email: legal@nilelimited.com; website: www.nilelimited.com;

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		STA	NDALC	NE	-		CON	SOLIDA	(Rs. in Lakhs) ATED				
	Quarter Ended			Nine Months Ended		Quarter Ended			Nine Months Ende				
Particulars								31.12.2022					
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited			
Total Income from Operations (net)	25,153.82	25,071.23	21,578.43	66,350.14	58,925.60	25,153.72	25,071.16	21,577.79	66,349.96	58,924.62			
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,608.40	1,103.30	667.52	3,400.96	1,914.05	1,603.18	1,098.70	656.95	3,384.23	1,892.11			
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,608.40	1,103.30	667.52	3,400.96	1,914.05	1,603.18	1,098.70	656.95	3,384.23	1,892.11			
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,191.94	822.46	500.94	2,526.25	1,424.87	1,186.70	817.66	490.37	2,509.30	1,402.93			
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	1,191.94	822.46	500.94	2,526.25	1,424.87	1,186.70	817.66	490.37	2,509.30	1,402.93			
Equity Share Capital	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19			
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in Balance Sheet of previous year)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NΑ			
Earnings Per Share (of = 10/- each) (a) Basic (in Rs.) (b) Diluted (in Rs.)	39.71 39.71	27.40 27.40	16.69 16.69	84.16 84.16		39.53 39.53			83.59 83.59	46.73 46.73			

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months Financial Results is available on the BSE Ltd. (Stock Exchange) website (www.bseindia.com), and Website of the Company (www.nilelimited.com).

2. The Consolidated Financial Results include results of wholly owned Subsidiaries "Nirmalya Extracts Private Limited" and "Nile Li-Cycle Private Limited". Both the Subsidiary Companies has not yet started its Business Operations as on Nine Months Ended 31.12.2023.

Place: Hyderabad Date: 13th February, 2024

Sd/- Rajani K Company Secretary

For Nile Limited

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414, Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015, Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982, Email Id.: investorcare@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF LINAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

					(Rs.	In lakhs, exce	pt per share data)
_				Co	nsolidated		000
Sr.	No. of the Control of	Fo	r the quarter en	ded	For the nine m	onths ended	For the year ended
No.	Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 2 3 4 5	Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period	2,566.15 2,037.02 2,067.99 1,728.69	2,684.77 2,561.47 2,608.20 2,065.64	1,811.13 727.88 727.49 554.84	7,748.37 6,967.62 7,075.61 5,453.35	12,268.61 11,639.05 11,637.81 8,701.23	13,350,36 12,435,19 12,434,35 9,258,26
6 7 8	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Other Equity Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	89,806.20 513.62 33.66 33.66	1,17,850.01 513.62 40.22 40.22	1,33,280.87 513.62 10.8 10.8	3,48,920.67 513.62 106.18 106.18	6,396.05 513.62 169.41 169.41	5,874.99 513.62 7,98,836.74 180.26 180.26

The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months financial results filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly and nine months financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com).

Particulars			Sta	andalone		
Badladan	Fo	r the quarter en	ded	For the nine m	onths ended	For the year ended
Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
Name and the second sec	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	1,168.74	2,373.84	534.83	5,763.11	10,412.48	11,207.12
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,116.57	2,322.22	558.27	5,578.48	10,335.76	10,911.63
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,116.57	2,322.22	558.27	5,578.48	10,335.76	10,911.63
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	843.40	1,715.14	420.56	4,136.48	7,702.20	8,094.64

The financial result of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2023 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 13th February, 2024 and limited review of the same has been carried out by the statutory auditor of the Company. These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other

> By order of the Board of Directors For Nalwa Sons Investments Limited

> > Mahender Kumar Goel

Whole Time Director

DIN: 00041866

Date: 13th February, 2024



Place: New Delhi

recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

PGIM India Asset Management Private Limited

4th Floor, C wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100 CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446 Website: www.pgimindiamf.com

NOTICE

Notice is hereby given that PGIM India Trustees Private Limited, Trustee to PGIM India Mutual Fund, has approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the following schemes of PGIM India Mutual Fund with February 16, 2024 as the record date: -

Plans / Options	Quantum of IDCW per Unit (Gross of Statutory Levy, if any)* (₹)	Face Value (₹ Per Unit)	NAV of IDCW Option as on February 12, 2024 (₹ per unit)#
Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0437	10	11.0454
Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.1702	10	23.2400
Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.1856	10	25.3500
Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.0721	10	12.7333
Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0783	10	13.8143
	Direct Plan - Monthly IDCW Option Regular Plan - Monthly IDCW Option Direct Plan - Monthly IDCW Option Regular Plan - Monthly IDCW Option	Plans / Options IDCW per Unit (Gross of Statutory Levy, if any)* (₹) Direct Plan - Monthly IDCW Option 0.0437 Regular Plan - Monthly IDCW Option 0.1702 Direct Plan - Monthly IDCW Option 0.1856 Regular Plan - Monthly IDCW Option 0.0721	Plans / Options IDCW per Unit (Gross of Statutory Levy, if any)* (₹) Direct Plan - Monthly IDCW Option Regular Plan - Monthly IDCW Option Direct Plan - Monthly IDCW Option O.1702 Direct Plan - Monthly IDCW Option Regular Plan - Monthly IDCW Option O.1856 10 Regular Plan - Monthly IDCW Option O.0721 10

*Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the above-mentioned option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

IDCW will be paid to those unit holders whose names appear in the records of the Registrar as at the close of business on the record date. For units in dematerialized form, all unit holders whose names appear in the beneficiary position file downloaded from the depositories as on the record date will be entitled to receive the IDCW.

*The IDCW distribution will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

> For PGIM India Asset Management Private Limited (Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Place: Mumbai

Date: February 13, 2024

Sd/-Authorized Signatory

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Mutual Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') payments.

> MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

ELIXIR CAPITAL LIMITED

58, Mittal Chambers, 5th Floor, 228, Nariman Point, Mumbai - 400 021 CIN - L67190MH1994PLC083361

Extract of Standalone and Consolidated unaudited Results for the Quarter ended 31st December, 2023 Particulars Standalone 9 months 3 months ended ended ended ended ended 31-Dec-23 31-Dec-22 31-Dec-23 31-Dec-22 31-Mar-23 (All Rs. In lakhs except EPS) UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED **AUDITED** 86.95 133.39 138.64 4.75 Total Income from Operations 16.13 Net Profit / (Loss) 2.06 13.25 76.55 124.01 125.53 (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period 13.25 128.41 124.01 125.53 (before tax after exceptional and extraordinary items) 1.93 Net Profit / (Loss) for the period after tax 112.63 (after exceptional and extraordinary items) 114.16 0.26 9.95 111.17 Total comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period and 114.16 112.63 after comprehensive income (net of tax) 0.26 9.95 111.17 Equity Share Capital 580.32 580.32 580.32 580.32 580.32 Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year) Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares, Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized) (a) Basic 0.00 0.17 1.97 1.92 1.94 (b) Diluted 0.00 0.17 1.97 1.92 1.94 Farnings Dar Chara after Eveentional Items (Equity chares

9	Earnings Per Share after Exceptional Items (Equity shares, Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)					
	(a) Basic	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
	(b) Diluted	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
Sr.	Particulars			Consolidated		
No.	(All Rs. In lakhs except EPS)	3 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED	9 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED	Year ended 31-Mar-23 AUDITED
1	Total Income from Operations	611.91	25.16	1,766.08	485.68	450.07
2	Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period	410.18	(147.14)	1,150.36	(39.35)	(266.43)
ı	(before tax after exceptional and extraordinary items)	410.18	(147.14)	1,202.23	(39.35)	(266.43)
4 5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable	318.30	(142.61)	1,032.43	(77.35)	(342.59)
6 7	to the owners of the company [comprising Profit for the period and after other comprehensive income (net of tax)] Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year)	235.62 580.32	(102.95) 580.32	774.26 580.32	(47.75) 580.32	(243.65) 580.32
8	Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares, Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized) (a) Basic	4.06	(1.77)	13.34	(0.82)	(4.20)
9	(b) Diluted Earnings Per Share after Exceptional Items (Equity shares, Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)	4.06	(1.77)	13.34	(0.82)	(4.20)
	(a) Basic (b) Diluted	4.06 4.06	(1.77) (1.77)	13.34 13.34	(0.82) (0.82)	(4.20) (4.20)
Not	e:	11 2				

a. The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended on 31st December, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Reguirements) Regulations, 2015. The full format of the above Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the company's website www.elixircapital.in

b. The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeing held on 13th February, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the above Standalone Financial Results pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. FOR ELIXIR CAPITAL LIMITED

Place : Mumbai Date: 13/02/2024

DIPAN MEHTA Chairman DIN: 00115154

-\h2



TAKE SOLUTIONS LTD. Regd. Office: No.56, Ragas Building, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai-600 004 Email: secretarial@takesolutions.com, Website: www.takesolutions.com CIN: L63090TN2000PLC046338

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023

(₹ In Million except per share data

SI. No.	PARTICULARS	3 months ended Dec 31, 2023	9 months ended Dec 31, 2023	3 months ended Dec 31, 2022
2 8		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1	Revenue from operations	168.51	524.02	507.08
2	Exceptional Items		(3.62)	-
3	Profit /(Loss) before tax for continuing operation	(9.54)	(76.27)	(78.97)
4	Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation	-	-	3.64
5	Profit /(Loss) after tax	(21.36)	(90.06)	(98.52)
6	Equity Share Capital	146.22	146.22	146.22
7	Total comprehensive income	(21.45)	(92.19)	(96.94)
8	Earnings per share (Par value of ₹ 1/- each, not annualised) (a) Basic (b) Diluted	(0.15) (0.15)	(0.62) (0.62)	(0.70) (0.70)
F	inancial Results of TAKE Solution	s Limited (S	tandalone Inf	ormation)
1	Revenue from operations	-	54.21	127.50
2	Other income	7.12	8.67	12.35
3	Profit /(Loss) before tax for continuing operation	(10.72)	(23.53)	2.10
4	Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation	-	-	-
5	Profit/(Loss) after tax	(46.49)	(57.63)	0.75
4	The Unequelited Charadeless and Car	I' - I - 1 - 1 - C'		the state of the s

The Unaudited Standalone and Consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 in respect of TAKE Solutions Limited ('the Company') have been reviewed and recommeded by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on February 13, 2024. The above results have been reviewed by the Statutory auditors of the Company.

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular dated July 05, 2016.

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Statements are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.takesolutions.com

For and on Behalf of the Board of Directors

Place: Chennai Date : Feb 13, 2024

Srinivasan H.R. Chairman for the meeting dated Feb 13, 2024



MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED (A Govt. of India Enterprise) Corporate & Registered Office: Mahanagar Doorsanchar Sadan,

5th Floor, 9, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 Website: www.mtnl.net.in, Phone (Off.): 011-24319020, Fax: 011-24324243, CIN: L32101DL1986G0I023501

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

1			S	TANDALONE				CO	NSOLIDATED		s. in Crore)
		Three N			Year Ended	Three Months Ended			ths Ended	Year Ended	
	Particulars	3 months ended 31/12/2023	Corresponding 3 months ended 31/12/2022 in the previous year		Year to date figures for previous period ended 31/12/2022	Previous year ended 31/03/2023	3 months ended 31/12/2023	Corresponding 3 months ended 31/12/2022 in the previous year		Year to date figures for previous period ended 31/12/2022	Previous year ended 31/03/2023
		UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED
1.	Total Income from Operations	169.25	203.19	535.81	659.22	861.57	192.24	227.41	589.55	716.05	935.23
2.	Net Profit/ (Loss) for the period before exceptional items & tax	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.61)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after exceptional items)	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.61)
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax	(841,79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.11)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising net profit/ (loss) after tax and other comprehensive income after tax)	(842.92)	(776.83)	(2,488.00)	(2,161.34)	(2,915.22)	(836.92)	(772.06)	(2,487.86)	(2,158.69)	(2,915.46)
6.	Paid up Equity Share Capital	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630,00	630.00	630.00
7.	Other Equity excluding Revaluation Reserves	(23,519.43)	(21,447.79)	(23,519.43)	(21,447.79)	(21,472.90)	(23,531.33)	(21,456.94)	(23,531.33)	(21,456.94)	(21,484.94)
8.	Securities Premium Account	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665,00	665.00	665.00	665.00
9.	Net Worth	(22,889.43)	(20,817.79)	(22,889.43)	(20,817.79)	(20,842.90)	(22,901.33)	(20,826.94)	(22,901.33)	(20,826.94)	(20,854.94)
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	25,253.57	23,159.85	25,253.57	23,159.85	23,499.69	25,253.57	23,159.85	25,253.57	23,159.85	23,499.69
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares				-			84	34		
12.	Debt Equity Ratio (in times)	(1.30)	(1.37)	(1.30)	(1.37)	(1.35)	(1.30)	(1.36)	(1.30)	(1.36)	(1.35)
13.	Earnings Per Share (of Rs.10 each) for continuing and discontinued operations- (not annualised) (In Rs.)		3 00			bet 200 neo	00 000 0	*	9.00	N	
	1. Basic ;	(13.36)	(12.35)	(39.44)	(34.36)	(46.20)	(13.32)	(12.31)	(39.43)	(34.39)	(46.27)
	2. Diluted :	(13.36)	(12.35)	(39.44)	(34.36)	(46.20)	(13.32)	(12.31)	(39.43)	(34.39)	(46.27)
14.	Capital Redemption Reserve	-		-		-	9 3		85	85	1
15.	Debenture Redemption Reserve		9	2	- 3	52	80	1/2	021	7/2	

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the company at www.mtnl.net.in and on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com

0.00

0.01

0.05

0.01

0.03

(0.00)

(0.00)

0.00

0.01

0.02

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 13.02.2024 and approved by the Board of Directors of the Company at their 3. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made

to the BSE & NSE and can be accessed on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com 4. The company has prepared these financial results in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 prescribed under Section 133 of the

Companies Act, 2013. For and on behalf of the Board

> (P K Purwar) Chairman & Managing Director DIN: 06619060

Place: New Delhi Date: 13.02.2024

16. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (in times)

17. Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (in times)

0.00

(0.00)

An ISO 9001 Company

CIN: L27029AP1984PLC004719

Regd. Office: Plot No.38 & 40, APIIC Industrial Park, Gajulamandyam (V), Renigunta (M), Tirupati Dist., A.P.- 517520 Corp. Office: Plot No.24A/A, MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034. Ph.040-23606641, Fax: 040-23606640 Email: legal@nilelimited.com; website: www.nilelimited.com;

3		STA	NDALC	NE	- 8		CON	SOLIDA	TED	
	Qı	uarter Ende	ed 🍦	Nine Mont	ths Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended	
Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.202
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited
Total Income from Operations (net)	25,153.82	25,071.23	21,578.43	66,350.14	58,925.60	25,153.72	25,071.16	21,577.79	66,349.96	58,924.62
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,608.40	1,103.30	667.52	3,400.96	1,914.05	1,603.18	1,098.70	656.95	3,384.23	1,892.11
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,608.40	1,103.30	667.52	3,400.96	1,914.05	1,603.18	1,098.70	656.95	3,384.23	1,892.11
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,191.94	822.46	500.94	2,526.25	1,424.87	1,186.70	817.66	490.37	2,509.30	1,402.93
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	1,191.94	822.46	500.94	2,526.25	1,424.87	1,186.70	817.66	490.37	2,509.30	1,402.93
Equity Share Capital	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in Balance Sheet of previous year)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Earnings Per Share (of 🔻 10/- each) (a) Basic (in Rs.) (b) Diluted (in Rs.)	39.71 39.71	27.40 27.40	16.69 16.69	84.16 84.16	47.47 47.47	39.53 39.53				

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months Financial Results is available on the BSE Ltd. (Stock Exchange) website (www.bseindia.com), and Website of the Company (www.nilelimited.com).
- 2. The Consolidated Financial Results include results of wholly owned Subsidiaries "Nirmalya Extracts Private Limited" and "Nile Li-Cycle Private Limited". Both the Subsidiary Companies has not yet started its Business Operations as on Nine Months Ended 31.12.2023

Place: Hyderabad Date: 13th February, 2024

For Nile Limited Sd/- Rajani K Company Secretary

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414, Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015, Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982. Email Id.: investorcare@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 (Rs. In lakhs, except per share data)

		Consolidated									
Sr.		Fo	r the quarter en	ded	For the nine m	For the year ended					
No.	Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023				
500	M3 = 450	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited				
1 2 3 4 5	Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period	2,566.15 2,037.02 2,067.99 1,728.69	2,664.77 2,561.47 2,608.20 2,065.64	1,811.13 727.88 727.49 554.84	7,748.37 6,967.62 7,075.61 5,453.35	12,268.61 11,639.05 11,637.81 8,701.23	13,350.36 12,435.19 12,434.35 9,258.26				
6 7 8	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Other Equity Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic:	89,806.20 513.62 - 33.66	1,17,850.01 513.62 - 40.22	1,33,280.87 513.62 - 10.8	3,48,920.67 513.62 - 106.18	6,396.05 513.62 - 169.41	5,874.99 513.62 7,98,836.74 180.26				
	2. Diluted:	33.66	40.22	10.8	106.18	169.41	180.26				

The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly and nine months financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com). (Rs. In lakhs, except per share data) Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR):

		Standalone									
	Pleast endered	Fo	r the quarter en	ded	For the nine m	For the year ended					
	Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023				
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited				
	Total income from operations	1,168.74	2,373.84	534.83	5,763.11	10,412.48	11,207.12				
	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,116.57	2,322.22	558.27	5,578.48	10,335.76	10,911.63				
	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,116.57	2,322.22	558.27	5,578.48	10,335.76	10,911.63				
	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	843.40	1,715.14	420.56	4,136.48	7,702.20	8,094.64				
3	The financial result of the Company for the quarter and nine months ended on December 3 respective meetings held on 13th February, 2024 and limited review of the same has been ca					by the Board	of Directors in their				

These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

By order of the Board of Directors For Nalwa Sons Investments Limited Mahender Kumar Goel

Whole Time Director

DIN: 00041866

India Mutual Fund

Place: New Delhi

0.02

0.07

0.01

0.06

Date: 13th February, 2024

PGIM India Asset Management Private Limited

4th Floor, C wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100

CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446

Website: www.pgimindiamf.com

NOTICE

Notice is hereby given that PGIM India Trustees Private Limited, Trustee to PGIM India Mutual Fund, has approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the following schemes of PGIM India Mutual Fund with February 16, 2024 as the record date: -

Scheme Names	Plans / Options	Quantum of IDCW per Unit (Gross of Statutory Levy, if any)* (₹)	Face Value (₹ Per Unit)	NAV of IDCW Option as on February 12, 2024 (₹ per unit)#
PGIM India Arbitrage Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0437	10	11.0454
DOIN I - II	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.1702	10	23.2400
PGIM India Hybrid Equity Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.1856	10	25.3500
DOM India Fruits Codesa Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.0721	10	12.7333
PGIM India Equity Savings Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0783	10	13.8143

*Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the above-mentioned option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

IDCW will be paid to those unit holders whose names appear in the records of the Registrar as at the close of business on the record date. For units in dematerialized form, all unit holders whose names appear in the beneficiary position file downloaded from the depositories as on the record date will be entitled to receive the IDCW.

*The IDCW distribution will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

> For PGIM India Asset Management Private Limited (Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: February 13, 2024 Authorized Signatory

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Mutual Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') payments.

> MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

ELIXIR CAPITAL LIMITED 58, Mittal Chambers, 5th Floor, 228, Nariman Point, Mumbai - 400 021

CIN - L67190MH1994PLC083361

Extract of Standalone and Consolidated unaudited Results for the Quarter ended 31st December, 2023

Sr.	Particulars			Standalone		
No.		3 months	3 months	9 months	9 months	Year
	(All Rs. In lakhs except EPS)	ended 31-Dec-23 UNAUDITED	ended 31-Dec-22 UNAUDITED	ended 31-Dec-23 UNAUDITED	ended 31-Dec-22 UNAUDITED	ended 31-Mar-23 AUDITED
1	Total Income from Operations	4.75	16.13	86.95	133.39	138.64
2	Net Profit / (Loss)					
ı	(before tax, exceptional and extraordinary items)	2.06	13.25	76.55	124.01	125.53
3	Net Profit / (Loss) for the period					
ı	(before tax after exceptional and extraordinary items)	1.93	13.25	128.41	124.01	125.53
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax					
ı	(after exceptional and extraordinary items)	0.26	9.95	114.16	111.17	112.63
5	Total comprehensive Income for the period					
ı	(comprising Profit for the period and					
ı	after comprehensive income (net of tax)	0.26	9.95	114.16	111.17	112.63
6 7	Equity Share Capital	580.32	580.32	580.32	580.32	580.32
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves					
8	as per balance sheet of previous year)					
8	Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares,					
ı	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)					
ı	(a) Basic	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
I.	(b) Diluted	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
9	Earnings Per Share after Exceptional Items (Equity shares,					
l	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)					
l	(a) Basic	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
ı	(b) Diluted	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94

ı	(a) Basic	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
ı	(b) Diluted	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
9	Earnings Per Share after Exceptional Items (Equity shares,					
ı	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)					
ı	(a) Basic	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
	(b) Diluted	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
Sr.	Particulars			Consolidated	10 70	
No.		3 months	3 months	9 months	9 months	Year
ı		ended	ended	ended	ended	ended
ı	(All Rs. In lakhs except EPS)	31-Dec-23 UNAUDITED	31-Dec-22 UNAUDITED	31-Dec-23 UNAUDITED	31-Dec-22 UNAUDITED	31-Mar-23 AUDITED
1	Total Income from Operations	611.91	25.16	1,766.08	485.68	450.07
2	Net Profit / (Loss)					
ı	(before tax, exceptional and extraordinary items)	410.18	(147.14)	1,150.36	(39.35)	(266.43)
3	Net Profit / (Loss) for the period					
ı	(before tax after exceptional and extraordinary items)	410.18	(147.14)	1,202.23	(39.35)	(266.43)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax					
L	(after exceptional and extraordinary items)	318.30	(142.61)	1,032.43	(77.35)	(342.59)
5	Total comprehensive Income for the period attributable					
ı	to the owners of the company [comprising Profit for the	005.00	(400.05)	77400	(47.75)	(0.40.05)
	period and after other comprehensive income (net of tax)]		(102.95)	774.26	(47.75)	(243.65)
6 7	Equity Share Capital	580.32	580.32	580.32	580.32	580.32
 	Reserve (excluding Revaluation Reserves					
	as per balance sheet of previous year)					
8	Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares, Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)					
ı	(a) Basic	4.06	(1.77)	13.34	(0.82)	(4.20)
ı	(b) Diluted	4.06	(1.77)	13.34	(0.82)	(4.20)
9	Earnings Per Share after Exceptional Items (Equity shares,	4.00	(1.77)	10.04	(0.02)	(4.20)
ľ	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)					
ı	(a) Basic	4.06	(1.77)	13.34	(0.82)	(4.20)
	(b) Diluted	4.06	(1.77)	13.34	(0.82)	(4.20)
Not	. ,		()		(3.32)	(=0)

. The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended on 31st December, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the company's website

The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeing held on 13th February, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the above Standalone Financial Results pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

FOR ELIXIR CAPITAL LIMITED **DIPAN MEHTA** Chairman DIN: 00115154



TAKE SOLUTIONS LTD. Regd. Office: No.56, Ragas Building, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai-600 004 Email: secretarial@takesolutions.com, Website: www.takesolutions.com CIN: L63090TN2000PLC046338

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023

(₹ In Million except per share data)

SI. No.	PARTICULARS	3 months ended Dec 31, 2023 (Unaudited)	9 months ended Dec 31, 2023 (Audited)	3 months ended Dec 31, 2022 (Unaudited)								
1	Revenue from operations	168.51	524.02	507.08								
2	Exceptional Items	-	(3.62)	- 6								
3	Profit /(Loss) before tax for continuing operation	(9.54)	(76.27)	(78.97)								
4	Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation	-		3.64								
5	Profit /(Loss) after tax	(21.36)	(90.06)	(98.52)								
6	Equity Share Capital	146.22	146.22	146.22								
7	Total comprehensive income	(21.45)	(92.19)	(96.94)								
8	Earnings per share (Par value of ₹ 1/- each, not annualised) (a) Basic (b) Diluted	(0.15) (0.15)	(0.62) (0.62)	(0.70) (0.70)								
F	inancial Results of TAKE Solution	s Limited (St	andalone Inf	ormation)								
1	Revenue from operations	-	54.21	127.50								
2	Other income	7.12	8.67	12.35								
3	Profit /(Loss) before tax for continuing operation	(10.72)	(23.53)	2.10								
4	Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation	_	-	-								
5	Profit/(Loss) after tax	(46.49)	(57.63)	0.75								
1.												

Limited ('the Company') have been reviewed and recommeded by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on February 13, 2024. The above results have been reviewed by the Statutory auditors of the Company. These financial results have been prepared in accordance with Indian

Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder in terms of

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBİ Circular dated July 05, 2016. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Statements are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's

website www.takesolutions.com For and on Behalf of the Board of Directors

Place: Chennai Srinivasan H.R. Date : Feb 13, 2024 Chairman for the meeting dated Feb 13, 2024



New Delhi

Place : Mumbai Date: 13/02/2024 financiale r.in



MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED (A Govt. of India Enterprise)

Corporate & Registered Office: Mahanagar Doorsanchar Sadan, 5th Floor, 9, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 Website: www.mtnl.net.in, Phone (Off.): 011-24319020, Fax: 011-24324243, CIN: L32101DL1986G0I023501

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

1 1			S	TANDALONE				co	NSOLIDATED		
		Three M	onths Ended	Nine Mon	ths Ended	Year Ended	Three M	onths Ended	Nine Mon	ths Ended	Year Ended
	Particulars	3 months ended 31/12/2023	Corresponding 3 months ended 31/12/2022 in the previous year		Year to date figures for previous period ended 31/12/2022	Previous year ended 31/03/2023	3 months ended 31/12/2023	Corresponding 3 months ended 31/12/2022 in the previous year		Year to date figures for previous period ended 31/12/2022	Previous year ended 31/03/2023
		UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED
1.	Total Income from Operations	169.25	203.19	535.81	659.22	861.57	192.24	227.41	589.55	716.05	935.23
2.	Net Profit/ (Loss) for the period before exceptional items & tax	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.61)
3.	Net Profit (Loss) for the period before Tax (after exceptional items)	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.61)
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax	(841.79)	(778.04)	(2,484.61)	(2,164.96)	(2,910.74)	(839.03)	(775.50)	(2,483.78)	(2,166.56)	(2,915.11)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising net profit/ (loss) after tax and other comprehensive income after tax)	(842.92)	(776.83)	(2,488.00)	(2,161.34)	(2,915.22)	(836.92)	(772.06)	(2,487.86)	(2,158.69)	(2,915.46)
6.	Paid up Equity Share Capital	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
7.	Other Equity excluding Revaluation Reserves	(23,519.43)	(21,447.79)	(23,519.43)	(21,447.79)	(21,472.90)	(23,531.33)	(21,456.94)	(23,531.33)	(21,456.94)	(21,484.94)
8.	Securities Premium Account	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
9.	Net Worth	(22,889.43)	(20,817.79)	(22,889.43)	(20,817.79)	(20,842.90)	(22,901.33)	(20,826.94)	(22,901.33)	(20,826.94)	(20,854.94)
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	25,253.57	23,159.85	25,253.57	23,159.85	23,499.69	25,253.57	23,159.85	25,253.57	23,159.85	23,499.69
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares		8				10-		19		
12.	Debt Equity Ratio (in times)	(1.30)	(1.37)	(1.30)	(1.37)	(1.35)	(1.30)	(1.36)	(1.30)	(1.36)	(1.35)
13.	Earnings Per Share (of Rs.10 each) for continuing and discontinued operations- (not annualised) (In Rs.)		328 5391	bi 2) 40	93 - 20	01. 00. 00c.	68. 9			io on 0	
	1. Basic :	(13.36)	(12.35)	(39.44)	(34.36)	(46.20)	(13.32)	(12.31)	(39.43)	(34.39)	(46.27)
	2. Diluted :	(13.36)	(12.35)	(39.44)	(34.36)	(46.20)	(13.32)	(12.31)	(39.43)	(34.39)	(46.27)
14.	Capital Redemption Reserve		8	i i	13	3 35		95	25.	3 35	
15.	Debenture Redemption Reserve	- 3	30	8	18	0 52	8	(2)	51 <u>2</u>	9/2	}
16.	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (in times)	0.00	(0.00)	0.00	0.01	0.02	0.01	(0.00)	0.00	0.01	0.02
17.	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (in times)	0.02	(0.01)	0.01	0.05	0.07	0.03	(0.00)	0.01	0.06	0.07

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the company at www.mtnl.net.in and on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 13.02.2024 and approved by the Board of Directors of the Company at their

3. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the BSE & NSE and can be accessed on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

4. The company has prepared these financial results in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. For and on behalf of the Board

(P K Purwar) Chairman & Managing Director DIN: 06619060

Place: New Delhi Date: 13.02.2024

> LIMITE An ISO 9001 Company

> > CIN: L27029AP1984PLC004719

Regd. Office: Plot No.38 & 40, APIIC Industrial Park, Gajulamandyam (V), Renigunta (M), Tirupati Dist., A.P.- 517520 Corp. Office: Plot No.24A/A, MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034. Ph.040-23606641, Fax: 040-23606640 Email: legal@nilelimited.com; website: www.nilelimited.com;

Statement of Standalone & Consolidated Un-audited Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2023

ž.	0				ii.				(Rs	. in Lakhs	
	STANDALONE						CONSOLIDATED				
	Q	uarter Ende	ed	Nine Mon	ths Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		
Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.202	
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	
Total Income from Operations (net)	25,153.82	25,071.23	21,578.43	66,350.14	58,925.60	25,153.72	25,071.16	21,577.79	66,349.96	58,924.62	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,608.40	1,103.30	667.52	3,400.96	1,914.05	1,603.18	1,098.70	656.95	3,384.23	1,892.11	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,608.40	1,103.30	667.52	3,400.96	1,914.05	1,603.18	1,098.70	656.95	3,384.23	1,892.11	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,191.94	822.46	500.94	2,526.25	1,424.87	1,186.70	817.66	490.37	2,509.30	1,402.93	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	1,191.94	822.46	500.94	2,526.25	1,424.87	1,186.70	817.66	490.37	2,509.30	1,402.93	
Equity Share Capital	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in Balance Sheet of previous year)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (a) Basic (in Rs.) (b) Diluted (in Rs.)	39.71 39.71	27.40 27.40									

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months Financial Results is available on the BSE Ltd. (Stock Exchange) website (www.bseindia.com), and Website of the Company (www.nilelimited.com).

2. The Consolidated Financial Results include results of wholly owned Subsidiaries "Nirmalya Extracts Private Limited" and "Nile Li-Cycle Private Limited". Both the Subsidiary Companies has not yet started its Business Operations as on Nine Months Ended 31.12.2023.

Place: Hyderabad Date: 13th February, 2024

Place : Mumbai

parea n 13/02/2024p.epapr.in

For Nile Limited Sd/- Rajani K Company Secretary

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414, Regd. Office: 28. Naiafoarh Road. Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015, Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982, Email Id.: investorcare@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

					(Rs.	In lakhs, exce	pt per share data)		
		Consolidated							
Sr.	5.00	Fo	r the quarter en	ded	For the nine m	For the year ended			
No.	Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023		
21701007		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,566.15 2,037.02	2,664.77 2,561.47	1,811.13 727.88	7,748.37 6,967.62	12,268.61 11,639.05	13,350.36 12,435.19		
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,067.99	2,608.20	727.49	7,075.61	11,637.81	12,434.35		
5	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period	1,728.69	2,065.64	554.84	5,453.35	8,701.23	9,258.26		
	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	89,806.20	1,17,850.01	1,33,280.87	3,48,920.67	6,396.05	5,874.99		
7	Equity Share Capital Other Equity	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62 7,98,836.74		
8	Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) -	2002	1707001	17752122	07422-7042	275222344	0260900		
	Basic: Diluted:	33.66 33.66	40.22 40.22	10.8 10.8	106.18 106.18	169.41 169.41	180.26 180.26		
Note	SINDS OF IS SOUND PROPERTY COME SAVE HOME WE SEE GAME HOME	Singa - nec	Marie es	er cooses mod	Harren asimon	Step secon B	S SPECIAL		

The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly and nine months financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com). (Rs. In lakhs, except per share data) Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR):

Standalone For the quarter ended For the nine months ended For the year ended **Particulars** 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 1,168.74 2,373.84 534.83 5,763.11 10,412.48 11,207.12 Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 558.27 5,578.48 10,335.76 10,911.63 1,116.57 2,322.22 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1,116.57 2,322.22 558.27 5,578.48 10,335.76 10,911.63 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 843.40 1,715.14 420.56 4,136.48 7,702.20 8.094.64 The financial result of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2023 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 13th February, 2024 and limited review of the same has been carried out by the statutory auditor of the Company These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other

recognized accounting practices and policies to the extent applicable. By order of the Board of Directors For Nalwa Sons Investments Limited

Mahender Kumar Goel Whole Time Director

DIN: 00041866

India Mutual Fund

Place: New Delhi

Date: 13th February, 2024

PGIM India Asset Management Private Limited

4th Floor, C wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100

Quantum of __

CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446

Website: www.pgimindiamf.com

NAV of IDCW

NOTICE

Notice is hereby given that PGIM India Trustees Private Limited, Trustee to PGIM India Mutual Fund, has approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the following schemes of PGIM India Mutual Fund with February 16, 2024 as the record date: -

Scheme Names	Plans / Options	IDCW per Unit (Gross of Statutory Levy, if any)* (₹)	Face Value (₹ Per Unit)	Option as on February 12, 2024 (₹ per unit)#	
PGIM India Arbitrage Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0437	10	11.0454	
DOIN India Uthaid Facility Food	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.1702	10	23.2400	
PGIM India Hybrid Equity Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.1856	10	25.3500	
DOIM India Fruits Coulons Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	0.0721	10	12.7333	
PGIM India Equity Savings Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	0.0783	10	13.8143	

*Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the above-mentioned option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

IDCW will be paid to those unit holders whose names appear in the records of the Registrar as at the close of business on the record date. For units in dematerialized form, all unit holders whose names appear in the beneficiary position file downloaded from the depositories as on the record date will be entitled to receive the IDCW.

*The IDCW distribution will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

For PGIM India Asset Management Private Limited (Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Place: Mumbai

Authorized Signatory Date: February 13, 2024 Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC and are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Mutual Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital

> MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

ELIXIR CAPITAL LIMITED

58, Mittal Chambers, 5th Floor, 228, Nariman Point, Mumbai - 400 021 CIN - L67190MH1994PLC083361

Extract of Standalone and Consolidated unaudited Results for the Quarter ended 31st December, 2023 **Particulars** Standalone

UI.	i uitiouiui3			- un.i.u.u.i.o.i.o		
No.		3 months ended	3 months ended	9 months ended	9 months ended	Year ended
	(All Rs. In lakhs except EPS)	31-Dec-23 UNAUDITED	31-Dec-22	31-Dec-23 UNAUDITED	31-Dec-22 UNAUDITED	31-Mar-23 AUDITED
1 2	Total Income from Operations	4.75	16.13	86.95	133.39	138.64
	Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items)	2.06	13.25	76.55	124.01	125.53
3	Net Profit / (Loss) for the period					
4	(before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	1.93	13.25	128.41	124.01	125.53
	(after exceptional and extraordinary items)	0.26	9.95	114.16	111.17	112.63
5	Total comprehensive Income for the period					
	(comprising Profit for the period and after comprehensive income (net of tax)	0.26	9.95	114.16	111.17	112.63
6	Equity Share Capital	580.32	580.32	580.32	580.32	580.32
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves					
8	as per balance sheet of previous year) Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares,					
ľ	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)					
	(a) Basic	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
9	(b) Diluted Earnings Per Share after Exceptional Items (Equity shares,	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
٦	Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized)					
	(a) Basic	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
	(b) Diluted	0.00	0.17	1.97	1.92	1.94
-						
Sr.	Particulars	02		Consolidated	e va	
Sr. No.	Particulars	3 months	3 months	9 months	9 months	Year ended
No.	Particulars (All Rs. In lakhs except EPS)	3 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED	9 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED	Year ended 31-Mar-23 AUDITED
No.	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations	ended 31-Dec-23	3 months ended 31-Dec-22	9 months ended 31-Dec-23	ended 31-Dec-22	ended 31-Mar-23
No.	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss)	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07
No.	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43)
No .	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43)
1 2 3	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43)
1 2 3 4	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable to the owners of the company [comprising Profit for the	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18 318.30	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14) (142.61)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23 1,032.43	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35) (77.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43) (342.59)
1 2 3 4	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable to the owners of the company [comprising Profit for the period and after other comprehensive income (net of tax)]	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18 318.30	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14) (142.61)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23 1,032.43	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35) (77.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43) (342.59)
1 2 3 4	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable to the owners of the company [comprising Profit for the period and after other comprehensive income (net of tax)] Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18 318.30	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14) (142.61)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23 1,032.43	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35) (77.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43) (342.59)
1 2 3 4 5 6 7	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable to the owners of the company [comprising Profit for the period and after other comprehensive income (net of tax)] Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year)	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18 318.30	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14) (142.61)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23 1,032.43	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35) (77.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43) (342.59)
No. 1 2 3 4 5	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable to the owners of the company [comprising Profit for the period and after other comprehensive income (net of tax)] Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year) Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares,	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18 318.30	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14) (142.61)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23 1,032.43	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35) (77.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43) (342.59)
1 2 3 4 5 6 7	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable to the owners of the company [comprising Profit for the period and after other comprehensive income (net of tax)] Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year)	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18 318.30	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14) (142.61)	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23 1,032.43	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35) (77.35)	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43) (342.59)
1 2 3 4 5 6 7 8	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable to the owners of the company [comprising Profit for the period and after other comprehensive income (net of tax)] Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year) Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares, Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized) (a) Basic (b) Diluted	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18 318.30 235.62 580.32	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14) (142.61) (102.95) 580.32	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23 1,032.43 774.26 580.32	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35) (77.35) (47.75) 580.32	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43) (342.59) (243.65) 580.32
1 2 3 4 5 6 7	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable to the owners of the company [comprising Profit for the period and after other comprehensive income (net of tax)] Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year) Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares, Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized) (a) Basic	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18 318.30 235.62 580.32	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14) (142.61) (102.95) 580.32	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23 1,032.43 774.26 580.32	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35) (77.35) (47.75) 580.32	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43) (342.59) (243.65) 580.32
1 2 3 4 5 6 7 8	(All Rs. In lakhs except EPS) Total Income from Operations Net Profit / (Loss) (before tax, exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) Total comprehensive Income for the period attributable to the owners of the company [comprising Profit for the period and after other comprehensive income (net of tax)] Equity Share Capital Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year) Earnings Per Share before Exceptional Items (Equity shares, Face value of Rs. 10.00 each) (Not annualized) (a) Basic (b) Diluted Earnings Per Share after Exceptional Items (Equity shares,	ended 31-Dec-23 UNAUDITED 611.91 410.18 410.18 318.30 235.62 580.32	3 months ended 31-Dec-22 UNAUDITED 25.16 (147.14) (147.14) (142.61) (102.95) 580.32	9 months ended 31-Dec-23 UNAUDITED 1,766.08 1,150.36 1,202.23 1,032.43 774.26 580.32	ended 31-Dec-22 UNAUDITED 485.68 (39.35) (39.35) (77.35) (47.75) 580.32	ended 31-Mar-23 AUDITED 450.07 (266.43) (266.43) (342.59) (243.65) 580.32

Note: The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended on 31st December, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the company's website

The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeing held on 13th February, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the above Standalone Financial Results pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **FOR ELIXIR CAPITAL LIMITED**

> **DIPAN MEHTA** Chairman DIN: 00115154

Place: Chennai

Date : Feb 13, 2024



Regd. Office: No.56, Ragas Building, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai-600 004 Email: secretarial@takesolutions.com, Website: www.takesolutions.com CIN: L63090TN2000PLC046338

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023

Withdrawal ('IDCW') payments.

		(₹ In N	Million except p	per share data
SI. No.	PARTICULARS	3 months ended Dec 31, 2023	9 months ended Dec 31, 2023	3 months ended Dec 31, 2022
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1	Revenue from operations	168.51	524.02	507.08
2	Exceptional Items	-	(3.62)	
3	Profit /(Loss) before tax for continuing operation	(9.54)	(76.27)	(78.97)
4	Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation	-	-	3.64
5	Profit /(Loss) after tax	(21.36)	(90.06)	(98.52
6	Equity Share Capital	146.22	146.22	146.22
7	Total comprehensive income	(21.45)	(92.19)	(96.94
8	Earnings per share (Par value of ₹ 1/- each, not annualised) (a) Basic (b) Diluted	(0.15) (0.15)	(0.62) (0.62)	(0.70 (0.70
F	inancial Results of TAKE Solution	s Limited (St	andalone Inf	ormation)
1	Revenue from operations	<u> </u>	54.21	127.50
2	Other income	7.12	8.67	12.3
3	Profit /(Loss) before tax for continuing operation	(10.72)	(23.53)	2.10
4	Profit /(Loss) before tax for discontiuned operation	-	-	
5	Profit/(Loss) after tax	(46.49)	(57.63)	0.7

The Unaudited Standalone and Consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 in respect of TAKE Solutions Limited ('the Company') have been reviewed and recommeded by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on February 13, 2024. The above results have been reviewed by the Statutory auditors of the Company.

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBÌ Circular dated July 05, 2016.

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Statements are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.takesolutions.com For and on Behalf of the Board of Directors

***FINANCIAL EXPRESS** BUSINESS financialexpress.com **BENGALURU**

Srinivasan H.R.

Chairman for the meeting dated Feb 13, 2024



स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0

पंजीo कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद (यू.पी.) CIN: L17100UP2016PLC084473,

फोन: 01232-261288, वेबसाइट: www.spaceincubatrics.com, ई-मेल: spaceincubatrics@gmail.com

31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही/नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय पृथक्कृत एवं समेकित परिणाम (हलाख में)

लेखापरिक्षित

1.11

-3227.87

-3227.78

-3227.78

3460.92

-2562.64

-9.33

-9.33

टिप्पणियाँ- 1. उपरोक्त अलेखापरिक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम जैसा कि अंकेक्षण कार्य समिति द्वारा समीक्षित किए गए हैं तथा तिथि 13.02.2024 में

आयोजित कम्पनी की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त थे। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने एक अप्रतिबन्धित एवं अविकृत लेखापरीक्षा

राय अपनी सीमित समीक्षा रिपोर्ट द्वारा व्यक्त की है। 2. उपरोक्त परिणाम स्टाक एक्सचेंज विनियम बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्धता दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 33 अन्तर्गत स्टाक एक्सचेंज में दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक

सार विवरण है तथा तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र प्रारूप स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइटः www.bseindia.com तथा कम्पनी की

31.12.2023

अलेखापरिक्षित

12.72

4.32

4.32

4.32

4.32

0.00

समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही

3.53

-3225.46

-3225.46

-3225.46

3460.92

0.00

-9.32

-9.32

31.03.2023 31.12.2022

The Indian Express. For the Indian Intelligent.

विवरण

शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु (अपवाद मद

शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि हेत् तथा कर पूर्व

शद्ध लाभ/(हानि) अवधि हेत् (कर पश्चात

अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर

पश्चात लाभ/हानि शामिल करके तथा कर

प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (₹10/- का अंकित मूल्य)

प्रति अंश आय (₹ 10/- प्रत्येक) (लगातार, सतत तथा खण्डित पथक कार्य संचालन हेत्।

वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com पर भी उपलब्ध है।

संचालन से कुल आय

(अपवाद मद से पश्चात)

तथा अपवाद मद से पश्चात

पश्चात अन्य व्यापक आय)

तथा कर से पूर्व)

अन्य इक्विटी

(अ) मूलमूत

स्थानः मुरादनगर

तिथि: 13.02.2024

(ब) द्रव्य

The Indian EXPRESS

31.12.2023

12.72

4.32

4.32

4.32

4.32

3460.92

0.00

0.01

अलेखापरिक्षित अलेखापरिक्षित लेखापरिक्षित अलेखापरिक्षित

समेकित

56.36

0.85

-527.70

-527.61

-527.61

3460.92

-2562.64

-1.52

-1.52

स्पेस इंक्युबैद्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0

(निशांत मित्तल) प्रबंध निदेशक

डिन : 02766556

समाप्त वर्ष | समाप्त तिमाही

15.16

3.53

-71.97

-71.97

-71.97

3460.92

0.00

-0.21

-0.21

31.03.2023 31.12.2022

IN THE COURT OF MS

Rasveen Kaur Judicial Magistrate First Class-18. Jalandhar Amrit Malwa Capital Ltd

Sona Devi CNR NO: PBJL03-000583-2023

Next Date: 20-03-2024

NACT/150/2023 Publication Issued To: Sona Devi :- C/o Sh. Malu Ram Resident Of Ward No.3 ganganagar rajasthan 335804 In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 20-03-2024 at 10:00 a.m. for details logon to:

https://highcourtchd.gov.in/?trs=dist rict notice&district=Jalandhar JMIC-18. Jalandhar

🕦 🎛 भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी, रोहिणी, ए-5, पर्ल्स बेस्ट हाइट्स-1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034. फोन: 43988800

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

एतदुद्वारा एक सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणी से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन एवं ब्याज के पूनर्भगतान में चूक कर चुके हैं एवं ऋणों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा व्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत सचना जारी किए गए थे. लेकिन उन्हें विना तामील किए वापस कर दिया गया है और इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक सचना के माध्यम से सचित किया जाता है। चल सम्पत्ति के दृष्टिबंधक का विवरण

(C) SAME OF THE SA		COAL TORRY	
कर्जदार का नाम	सम्पत्तियाँ का विवरण / लागू की जाने वाली सुरक्षित सम्पत्तियों का पता	माँग सूचना की तिथि	बकाया राशि (सूचना की तिथि तक)
प्री शंभु सबरन पुत्र स्व. चनेश्वर सबरन मकान नंबर 22, भूतल, ब्लॉक जी, पॉकेट 17, सेक्टर—15 रोहिणी,	निर्माण एवं मॉडलः	24.01.2024	रू.15,13,761/-
पहां भीः मकान नंबर 105, पॉकेट 20, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली—110085	थार एलएक्स डी एटी 4डब्यूडी 4एस एचटी पंजीकरण सं.: DL10CU4908	एनपीए की तिथि 17.01.2024	(पन्द्रह लाख तेरह हजार सात सौ इकसठ रूपये मात्र) 24.01.2024 तक, साथ ही आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि के साथ उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज आदि।

हम आपका ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकषित करते हैं जो कर्जदार/गारंटर को सुरक्षित सम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में बताता है।

सुचना की प्रतिस्थापित तामील हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त ऋणी और/या उनके गारंटर (जब भी लागु हो) को एतदहारा इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर वकाया राशि का भूगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर अवधि समाप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत इस सुचना की तारीख से 60 दिन।

दिनांकः 13.02.2024 स्थानः नर्ड दिल्ली प्राधिकत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

"IMPORTANT"

NUPUR RECYCLERS LIMITED

Formerly known as NUPUR RECYCLERS PRIVATE LIMITED Regd. Office: Plot No. 5, KH 12/8, 12/9, KH-12, Arjun Gali New Mandoli Industrial Area, Delhi - 110093 CIN: L37100DL2019PLC344788 Website: www.nupurrecyclers.com Email: compliance@nupurrecyclers.com Tel: +91-8882704751 EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2023 (Amount in Rs. Lacs)									
01			Quarter Ended		Nine Mon	Year Ended			
SI. No.	Particulars	31.12.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)		
1	Total Income from Operations	7,599.17	7,674.48	5,288.79	20,085.56	14,244.40	19,339.78		
2	Profit before exceptional items and tax	300.41	375.57	467.49	1,022.00	1,487.94	1,893.78		
3	Profit before tax	300.41	375.57	467.49	1,022.00	1,487.94	1,893.78		
4	Profit after tax	89.02	308.60	342.19	689.04	1,149.54	1,498.78		
5	Total Comprehensive Income for the year/period	78.99	627.37	109.08	1,025.57	1,110.61	1,155.16		
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10 each)	4,576.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00		
7	Other equity	3,622.82	3,545.78	2,808.26	3,622.82	2,808.26	2,744.65		
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)						22.01.02.01		
	Basic (in Rs.) (not annualised)	0.20	0.53	0.53	1.21	2.11	2.67		
	Diluted (in Rs.) (not annualised)	0.20	0.53	0.53	1.21	2.11	2.67		

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (NSE) and on the Company's website www.nupurrecyclers.com. (Amount in Rs. Lacs) Standalone information

SI.	HALL BALLEDON CO.		Quarter Ended		Nine Mon	Year Ended	
No.	A 200 C 200 C C C C C C C C C C C C C C C	31.12.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	8,046.66	4,527.31	2,289.65	14,560.51	8,415.97	10,541.00
2	Profit before exceptional items and tax	781.18	255.58	263.69	1,244.49	1,109.94	1,329.45
3	Profit before tax	781.18	255.58	263.69	1,244.49	1,109.94	1,329.45
4	Profit after tax	570.11	188.94	138.39	912.18	771.54	934.45
5	Total Comprehensive Income for the year/period	560.08	486.16	(117.39)	1,228.17	691.65	556.39
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10 each)	4,576.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00
7	Other equity	3,654.80	3,094.72	2,561.87	3,654.80	2,561.87	2,426.63
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)			100000			
	Basic (in Rs.) (not annualised)	1.25	0.41	0.30	1.99	1.69	2.04
	B1 - 1 - B - 1	1.05	0.14	0.00	4.00	4.00	0.04

- 1.25 0.41 0.30 1.99 3 These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principal in Ind AS 34 - Interim Financial Reporting, prescribed
- under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. 4 Figures for the previous periods have been re-grouped/ rearranged/ restated wherever necessary to make them comparable with those of the current period.

For NUPUR RECYCLERS LIMITED

Place: New Delhi Date: 13.02.2024

Rajesh Gupta Managing Director DIN - 01941985

CAPITAL TRUST LIMITED	Capital Trust
(CIN-L65923DL1985PLC195299)	Capital II ust
d Office: 205 Centrum Mall, Sultanpur, M G Road, New Delhi-110030	
9716844571 Email: info@capitaltrust.in Web: www.capitaltrust.in	

Registered Phone: EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023

CAPITAL TRUST LIMITED

82	Amount in Lakhs (except EPS									
SI. No.	Particulars	Qtr Ended 31.12.2023 Unaudited	Qtr Ended 30.09.2023 Unaudited	Corresponding Qtr ended 31.12.2022 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2023 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2022 Unaudited	Financial Year ended 31.03.2023 Audited			
1	Total Income from Operations	1,980.97	1,957.41	1,980.01	5,711.16	6,692.61	8,691.42			
2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	73.49	68.87	(481.93)	206.82	53.64	(6,132.67)			
3	Net Profit/(loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	73.49	68.87	(481.93)	206.82	53.64	(6,132.67)			
4	Net Profit/(loss) for the period after Tax and Minority Interest (after Exceptional and / or Extraordinary items)	55.27	51.17	(353.58)	154.69	40.12	(4,564.13)			
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	55.27	51.17	(353.58)	154.69	40.12	(4,549.93)			
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10 per Equity Share)	1,621.75	1,621.75	1,621.75	1,621.75	1,621.75	1,621.75			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						5,832.10			
8	Earning per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations)	0.34	0.32	(2.18)	0.95	0.25	(28.14)			
	I. Basic:									
	II. Diluted:	0.36	0.32	(2.18)	0.95	0.25	(28.14)			

Note:

- The above financial results of the Company have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by Board of Directors of the Company in their meeting held on 13th February 2024. The statutory auditors of the Company had audited these results.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and year to date Financial Results are available

Scooters India Limited

(A Government of India Enterprise). CIN: L25111UP1972G0I003599

on the websites of the Stock Exchange(s) i.e www.nseindia.com, www.bseindia.com, and the website of the Company at www.capitaltrust.in On behalf of the Board of Directors of Capital Trust Limited

New Delhi

Yogen Khosla Chairman and Managing Director 13th February 2024

1st Floor of 3/481, Vikalp Khand Gomti Nagar Lucknow UP 226010, India Telephone No. 0522-3178490, E-mail: csscootersindia@gmail.com, Website: www.scootersindialimited.com Statement of Unaudited Results for the Quarter and Nine Months Ended 31.12.2023 (Rs. in Lacs) Quarter | Nine Months | Quarter Quarter Quarter Nine Months Ended Ended Ended Ended ended ended 31.12.2023 Particulars 30.09.2023 30.06.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total income from operations (net) (75.91)(113.45)(1,578.76)402.28 (1,768.12)168.82 76.44 Net Profit for the period (before Tax. Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit for the period before tax (75.91)(113.45)(1,578.76)402.28 (1,768.12)168.82 76.44 (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period after (75.91)(113.45)(1,578.76)402.28 (1,768.12)168.82 76.44 tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the (75.91)(113.45)(1,578.76)(58.72)(1,768.12)168.82 76.44 period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 8,727.39 8,727.39 8,727.39 8,727.39 8,727.39 Equity Share Capital 8,727.39 8,727.39 Reserves (excluding Revaluation NA Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs 10 /- each) for continuing and discontinued operations (1.81)0.19 1. Basic (0.09)(0.13)(0.07)(2.03)0.09 (0.13)(2.03)0.09 Diluted (0.09)(1.81)(0.07)0.19

Notes: 1. The above is an extract of detailed format of Quarterly/Yearly Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/half yearly Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company's website (www.scootersindia.com). 2. These results have been prepared in accordance with the provisions of Section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India. By order of the Board For Scooters India Limited

Date: 13.02.2024 Place: Lucknow

Amit Shrivastav Chairman & Managing Director DIN - 10141867

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414, Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015, Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982 Email Id.: investorcare@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 (Rs. In lakhs, except per share data) Consolidated For the quarter ended For the nine months ended For the year ended **Particulars** 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2022 31.03.2023 Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited 7,748.37 13,350.36 2,566.15 2,664.77 1,811.13 12,268.61 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 2,037.02 2,561,47 727.88 6,967.62 11,639.05 12,435.19 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 2,067.99 2,608.20 727.49 7,075.61 11,637.81 12,434.35 8,701.23 9,258.26 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1,728.69 2.065.64 554.84 5,453.35 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 89,806.20 17,850,01 .33.280.87 3,48,920.67 6,396.05 5,874.99 513.62 513.62 Equity Share Capital 513.62 513.62 513.62 513.62 7,98,836.74 8 Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) -1. Basic: 33.66 40.22 10.8 106.18 169.41 180.26 33.66 40.22 10.8 106.18 169.41 2. Diluted: 180.26

Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly and nine months financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com) (Rs. In lakhs, except per share data) Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) Standalone For the guarter ended For the nine months ended For the year ended Particulars 30.09.2023 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited 11,207.12 1.168.74 2,373.84 534.83 5,763.11 10,412.48 Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 1,116.57 558.27 5,578.48 10,335.76 10,911.63 2,322.22

The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1,116.57 558.27 5,578.48 2,322.22 10,335.76 10,911.63 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 843.40 1,715.14 420.56 4,136.48 7,702.20 8,094.64 The financial result of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2023 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in the respective meetings held on 13th February, 2024 and limited review of the same has been carried out by the statutory auditor of the Company

These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

Place: New Delhi Date: 13th February, 2024

By order of the Board of Directors For Nalwa Sons Investments Limited Mahender Kumar Goe

Whole Time Director

DIN: 00041866

(रु. लाख में)

सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड CIN No.: L74110DL1984PLC018467

पंजीकृत कार्यालयः 109-ए (पहली मंजिल), सूर्य किरण बिल्डिंग, 19, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 वेबसाइट: www.sabrimala.co.in । ईमेल: cs@sabrimala.co.in । दूरभाष: + 91-8595956904

दिनांक 31.12.2023 को समाप्त तृतीय तिमाही एवं नो महीने के लिए अलेखा परीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का ब्योरा

		एक			समाकत			
	31 .12 .2023	31.12.2023	विगत वर्ष		31 .12 .2023	31 .12 .2023	विगत वर्ष	1
विवरण	को समाप्त	को समाप्त	31.12.2022		को समाप्त	को समाप्त	31.12.2022	
	वर्तमान	नौ	में समाप्त		वर्तमान	नौ	में समाप्त	
	तिमाही	महीने	समान तिमाही	31 .03 .2023	तिमाही	महीने	समान तिमाही	31.03.2023
	अलेखा परीक्षित	अलेखा परीक्षित	अलेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	अलेखा परीक्षित	अलेखा परीक्षित	अलेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
ने कुल आय	20.47	617.03	8.50	142.94	20.47	617.03	8.50	142.94
ए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट								
असाधारण मदों से पहले)	14.20	41.68	-20.99	-26.85	14.20	41.68	(20.99)	(26.85)
धि के लिए निवल लाभ/(हानि)		4 4						is = 5
ग/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	14.20	41.68	-20.99	-26.85	14.20	41.68	(20.99)	(26.85)
वधि के लिए निवल लाभ/(हानि)								
ग/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	10.48	30.84	-19.65	-26.69	10.48	30.84	-19.65	(26.69)
ए कुल परिपूर्ण आय (अवधि								
के लिए लाभ/(हानि) सम्मलित) तथा								
आय (करोपरांत)]	10.48	30.84	-19.65	-26.69	10.48	30.84	-19.65	(26.69)
र पूँजी	871.45	871.45	871.45	871.45	871.45	871.45	871.45	871.45
पार्जन (रु. 10/- प्रत्येक)								
द परिचालन के लिए)		Į.						
	0.12	0.35	-0.23	-0.31	0.12	0.35	-0.23	-0.31
5	0.12	0.35	-0.23	-0.31	0.12	0.35	-0.23	-0.31
	क्रीम मेरी (मनीक्रमा उश्र अन्	0.12	0.12 0.35	0.12 0.35 -0.23	0.12 0.35 -0.23 -0.31	0.12 0.35 -0.23 -0.31 0.12	0.12 0.35 -0.23 -0.31 0.12 0.35	

1. ऊपर उल्लिखित ब्यौरा सेबी (सूचीकरण तथा अन्य प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष दायर तिमाही एवं वर्ष से तारीख तक वित्तीय परिणामों| का सारांश है। तिमाही एवं वर्ष से तारीख तक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com एवं www.cse-india.com तथा सूचीबद्ध प्रतिष्ठान

की वेबसाइट यानी www.sabrimala.co.in पर उपलब्ध है। 2. लेखा परीक्षक कमिटी द्वारा ब्यौरे की समीक्षा की गई है एवं निदेशक मंडल द्वारा 13 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में उसे अनुमोदित कर दिया गया है। संविधिक लेखापरीक्षक द्वारा ऊपर उल्लेखित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।

> सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से

तारीखः 13/02/2024 स्थानः नई दिल्ली

स्रेश कुमार मित्तल (प्रबंध निदेशक)



For the Indian Intelligent.

♦ The Indian EXPRESS

IN THE COURT OF MS

Rasveen Kaur Judicial Magistrate First Class-18, Jalandhar Amrit Malwa Capital Ltd

Vs.

Sona Devi CNR NO: PBJL03-000583-2023

Next Date: 20-03-2024 NACT/150/2023 Publication Issued To: Sona Devi :- C/o Sh. Malu Ram Resident Of Ward No.3 ganganagar rajasthan 335804 In above titled case, the accused

could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 20-03-2024 at 10:00 a.m. for details logon to:

https://highcourtchd.gov.in/?trs=dist rict notice&district=Jalandhar JMIC-18. Jalandhar

ा 🕦 भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी, रोहिणी, ए-5, पर्ल्स बेस्ट हाइट्स-1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034. फोन: 43988800

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभृति हित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

एतदुद्वारा एक सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणी से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन एवं व्याज के पुनर्भुगतान में चूक कर चुके हैं एवं ऋणों को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रतिभृतिकरण एवं वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत सुचना जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें बिना तामील किए वापस कर दिया गया है और इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक सुचना के माध्यम से सुचित किया जाता है। चल सम्पत्ति के दृष्टिबंधक का विवरण

कर्जदार का नाम	सम्पत्तियों का विवरण / लागू की जाने	माँग सूचना	वकाया राशि
	वाली सुरक्षित सम्पत्तियों का पता	की तिथि	(सूचना की तिथि तक)
मकान नंबर 22, भूतल, ब्लॉक जी, पॉकेट 17, सेक्टर-15 रोहिणी, दिल्ली-110085 यहां भीः मकान नंबर 105, पॉकेट 20, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली-110085 यहां भीः मकान नंबर 68, पॉकेट 1, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली-110085 श्री शंभु सबरन पार्टनर हाई लैंड इंटरनेशनल नंबर 2, पॉकेट 3 ब्लॉक डी, सेक्टर 11, रोहिणी, दिल्ली-85। इसके अलावाः प्रथम तल, 36, ब्लॉक ए, पॉकेट 1, सेक्टर 7, रोहिणी,	थार एलएक्स डी एटी 4डब्यूडी 4एस एचटी पंजीकरण सं.: DL 10 CU 4908	24.01.2024 एनपीए की तिथि 17.01.2024	रू.15,13,761/- (पन्द्रह लाख तेरह हजार सात सौ इकसठ रूपये मात्र) 24.01.2024 तक, साथ ही आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि के साथ उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज आदि।

हम आपका घ्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकषित करते हैं जो कर्जदार/गारंटर को सुरक्षित सम्पत्तियों को घुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में बताता है।

सुचना की प्रतिस्थापित तामील हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त ऋणी और/या उनके गारंटर (जब भी लागू हो) को एतदुद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर अवधि समाप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत इस सूचना की तारीख से 60 दिन।

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट वैंक दिनांक: 13.02.2024 स्थानः नई दिल्ली

स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0

पंजी0 कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद (यू.पी.) CIN: L17100UP2016PLC084473, फोनः 01232-261288, वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com, ई—मेलः spaceincubatrics@gmail.com 21 हिज्यस्वर 2022 को जमान निमारी /नौमारी रेन अलेखाएरीबिन तिनीस एशक्कत एवं जमेकिन एरिणाम

豖.	विवरण		पृथक्कृत		समेकित			
सं.		समाप्त तिमाही 31.12.2023 अलेखापरिक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2023 लेखापरिक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2022 अलेखापरिक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2023 अलेखापरिक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2023 लेखापरिक्षित	समाप्त तिमाही 31.12.2022 अलेखापरिक्षित	
1.	संचालन से कुल आय	12.72	56.36	15.16	12.72	56.36	15.16	
2.	शुद्ध लाम/(हानि) अवधि हेतु (अपवाद मद तथा कर से पूर्व)	4.32	1.11	3.53	4.32	0.85	3.53	
3.	शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि हेतु तथा कर पूर्व (अपवाद मद से पश्चात)	4.32	-3227.87	-3225.46	4.32	-527.70	-71.97	
4.	शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि हेतु (कर पश्चात तथा अपवाद मद से पश्चात)	4.32	-3227.78	-3225.46	4.32	-527.61	-71.97	
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर पश्चात लाम/हानि शामिल करके तथा कर पश्चात अन्य व्यापक आय)	4.32	-3227.78	-3225.46	4.32	-527.61	-71.97	
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (*10/- का अंकित मूल्य)	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92	3460.92	
7.	अन्य इक्विटी	0.00	-2562.64	0.00	0.00	-2562.64	0.00	
8.	प्रति अंश आय (र 10/- प्रत्येक) (लगातार, सतत तथा खण्डित पृथक कार्य संघालन हेतु) (अ) मूलमूत (ब) द्रव्य	0.01 0.01	-9.33 -9.33	-9.32 -9.32	0.01 0.01	-1.52 -1.52	-0.21 -0.21	

टिप्पणियाँ- 1. उपरोक्त अलेखापरिक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम जैसा कि अंकेक्षण कार्य समिति द्वारा समीक्षित किए गए हैं तथा तिथि 13.02.2024 र आयोजित कम्पनी की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त थे। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने एक अप्रतिबन्धित एवं अविकृत लेखापरीक्षा राय अपनी सीमित समीक्षा रिपोर्ट द्वारा व्यक्त की है। 2. उपरोक्त परिणाम स्टाक एक्सचेंज विनियम बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्धता दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 33 अन्तर्गत स्टाक एक्सचेंज में दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार विवरण है तथा तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र प्रारूप स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइट: www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com पर भी उपलब्ध है। स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0

स्थानः मुरादनगर तिथि: 13.02.2024

डिन: 02766556 **Capital Trust**

(निशांत मित्तल) प्रबंध निदेशक

CAPITAL TRUST LIMITED

(CIN-L65923DL1985PLC195299) Registered Office: 205 Centrum Mall, Sultanpur, M G Road, New Delhi-110030 Phone: 9716844571 Email: info@capitaltrust.in Web: www.capitaltrust.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023.

Extract of discount in the second of the government and the second of th	
Amount in Lakhs (ex	cept EPS)

SI. No.	Particulars	Qtr Ended 31.12.2023 Unaudited	Qtr Ended 30.09.2023 Unaudited	Corresponding Qtr ended 31.12.2022 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2023 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2022 Unaudited	Financial Year ended 31.03.2023 Audited
1	Total Income from Operations	1,980.97	1,957.41	1,980.01	5,711.16	6,692.61	8,691.42
2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	73.49	68.87	(481.93)	206.82	53.64	(6,132.67)
3	Net Profit/(loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	73.49	68.87	(481.93)	206.82	53.64	(6,132.67)
4	Net Profit/(loss) for the period after Tax and Minority Interest (after Exceptional and / or Extraordinary items)	55.27	51.17	(353.58)	154.69	40.12	(4,564.13)
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	55.27	51.17	(353.58)	154.69	40.12	(4,549.93)
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10 per Equity Share)	1,621.75	1,621.75	1,621.75	1,621.75	1,621.75	1,621.75
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						5,832.10
8	Earning per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations)	0.34	0.32	(2.18)	0.95	0.25	(28.14)
	I. Basic:						
	II. Diluted:	0.36	0.32	(2.18)	0.95	0.25	(28.14)

Note:

- The above financial results of the Company have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by Board of Directors of the
- Company in their meeting held on 13th February 2024. The statutory auditors of the Company had audited these results. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / year to date Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the

SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and year to date Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e www.nseindia.com, www.bseindia.com, and the website of the Company at www.capitaltrust.in

On behalf of the Board of Directors of Capital Trust Limited

New Delhi

13th February 2024

Yogen Khosla Chairman and Managing Director

Scooters India Limited (A Government of India Enterprise). CIN: L25111UP1972G0I003599

E-mail: csscootersindia@gmail.com, Website: www.scootersindialimited.com

1st Floor of 3/481, Vikalp Khand Gomti Nagar Lucknow UP 226010, India Telephone No. 0522-3178490,

	Stateme	nt of Unaudited	Results for the	e Quarter and N	line Months En	ded 31.12.2023	N	(Rs. in Lacs)
SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2023 Unaudited	Quarter Ended 30.09.2023 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2022 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2023 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2022 Unaudited	Year ended 31.03.2023 Audited
1 2	Total income from operations (net) Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or	(75.91)	(113.45)	(1,578.76)	402.28	(1,768.12)	168.82	76.44
3	Extraordinary items) Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or	(75.91)	(113.45)	(1,578.76)	402.28	(1,768.12)	168.82	76.44
4	Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(75.91)	(113.45)	(1,578.76)	402.28	(1,768.12)	168.82	76.44
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(75.91)	(113.45)	(1,578.76)	(58.72)	(1,768.12)	168.82	76.44
6 7	Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	8,727.39 NA	8,727.39 NA	8,727.39 NA	8,727.39 NA	8,727.39 NA	8,727.39 NA	8,727.39 NA
8	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs 10 /- each) for continuing and discontinued operations 1. Basic	(0.09)	(0.13)	(1.81)	(0.07)	(2.03)	0.19	0.09
	1. Dasic	(0.09)	(0.13)	(1.01)	(0.07)	(2.03)	0.19	0.09

Notes: 1. The above is an extract of detailed format of Quarterly/Yearly Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/half yearly Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company's website (www.scootersindia.com). 2. These results have been prepared in accordance with the provisions of Section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India. By order of the Board

(1.81)

(0.13)

Date: 13.02.2024 Place: Lucknow

Sd/-**Amit Shrivastav** Chairman & Managing Director DIN - 10141867

For Scooters India Limited

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

NUPUR RECYCLERS LIMITED

Formerly known as NUPUR RECYCLERS PRIVATE LIMITED Regd. Office: Plot No. 5, KH 12/8, 12/9, KH-12, Arjun Gali New Mandoli Industrial Area, Delhi - 110093 CIN: L37100DL2019PLC344788 Website: www.nupurrecyclers.com Email: compliance@nupurrecyclers.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS EOD THE OHADTED AND NINE MONTH ENDED DECEMBED 31 2023 (Amount in Do Lace)

	FOR THE QUARTER A	IND MINE MC	MIH ENDED	DECEMBER S	1, 2023	(All	(mount in Rs. Lacs)	
SI.			Quarter Ended		Nine Mon	Year Ended		
No.	Particulars	31.12.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	
1	Total Income from Operations	7,599.17	7,674.48	5,288.79	20,085.56	14,244.40	19,339.78	
2	Profit before exceptional items and tax	300.41	375.57	467.49	1,022.00	1,487.94	1,893.78	
3	Profit before tax	300.41	375.57	467,49	1,022.00	1,487.94	1,893.78	
4	Profit after tax	89.02	308.60	342.19	689.04	1,149.54	1,498.78	
5	Total Comprehensive Income for the year/period	78.99	627.37	109.08	1,025.57	1,110.61	1,155.16	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10 each)	4,576.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	
7	Other equity	3,622.82	3,545.78	2,808.26	3,622.82	2,808.26	2,744.65	
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)			140,000				
****	Basic (in Rs.) (not annualised)	0.20	0.53	0.53	1.21	2.11	2.67	
- 1	Diluted (in Rs.) (not annualised)	0.20	0.53	0.53	1.21	2.11	2.67	

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (NSE) and on the Company's website www.nupurrecyclers.com. 2 Standalone information (Amount in Rs. Lacs)

SI.			Quarter Ended		Nine Mon	Year Ended	
No.	Particulars	31.12.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	8,046.66	4,527.31	2,289.65	14,560.51	8,415.97	10,541.00
2	Profit before exceptional items and tax	781.18	255.58	263.69	1,244.49	1,109.94	1,329.45
3	Profit before tax	781.18	255.58	263.69	1,244.49	1,109.94	1,329.45
4	Profit after tax	570.11	188.94	138.39	912.18	771.54	934.45
5	Total Comprehensive Income for the year/period	560.08	486.16	(117.39)	1,228.17	691.65	556.39
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10 each)	4,576.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00	4,576.00
7	Other equity	3,654.80	3,094.72	2,561.87	3,654.80	2,561.87	2,426.63
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)		- 000	- 00		. 10 - 0	
	Basic (in Rs.) (not annualised)	1.25	0.41	0.30	1.99	1.69	2.04
	Diluted (in Rs.) (not annualised)	1.25	0.41	0.30	1.99	1.69	2.04

- These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principal in Ind AS 34 Interim Financial Reporting, prescribed
- under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. 4 Figures for the previous periods have been re-grouped/ rearranged/ restated wherever necessary to make them comparable with those of the current period.

For NUPUR RECYCLERS LIMITED

Place: New Delhi Date: 13.02.2024

Rajesh Gupta Managing Director DIN - 01941985

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414, Regd. Office: 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi - 110 015, Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax: (011) 25928118, 45021982 Email Id.: investorcare@nalwasons.com. Website: www.nalwasons.com Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 (Rs. In lakhs, except per share data) Consolidated For the nine months ended | For the year ended For the quarter ended **Particulars** No. 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 7,748.37 12,268.61 13,350.36 Total income from operations 2,566.15 2.664.77 1,811.13 2.561.47 12,435.19 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 2.037.02 727.88 6.967.62 11,639.05 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 2,067.99 2,608.20 727.49 7,075.61 11,637.81 12,434.35 2,065.64 5,453.35 8,701.23 9,258.26 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1,728.69 554.84 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 89,806.20 17,850.01 1,33,280.87 ,48,920.67 6,396.05 5,874.99 513.62 513.62 Equity Share Capital 513.62 513.62 513.62 513.62 7,98,836.74 Other Equity Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) -

10.8 33.66 40.22 106.18 169.41 180.26 Diluted The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly and nine months financial results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com).

33.66

40.22

10.8

106.18

169.41

180.26

(Rs. In lakhs, except per share data) Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR): Standalone For the guarter ended For the nine months ended | For the year ended Particulars 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 1,168.74 2,373.84 534.83 5,763.11 10,412.48 11,207.12 10,911,63 5,578.48 10,335.76 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 1,116.57 2.322.22 558.27 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1,116.57 2,322.22 558.27 5,578.48 10,335.76 10,911.63 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 843.40 1,715.14 4,136.48 8,094.64

The financial result of the Company for the guarter and nine months ended on December 31, 2023 have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 13th February, 2024 and limited review of the same has been carried out by the statutory auditor of the Company These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.

Place: New Delhi Date: 13th February, 2024

तारीखः 13/02/2024

स्थानः नई दिल्ली

I. Basic

By order of the Board of Directors For Nalwa Sons Investments Limited Mahender Kumar Goel Whole Time Director

DIN: 00041866

सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड CIN No.: L74110DL1984PLC018467

पंजीकृत कार्यालयः 109-ए (पहली मंजिल), सूर्य किरण बिल्डिंग, 19, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

वेबसाइटः www.sabrimala.co.in । ईमेलः cs@sabrimala.co.in । दूरभाषः + 91-8595956904

दिनांक 31 12 2023 को समाप्त तृतीय तिमाही एवं नौ महीने के लिए अलेखा परीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का ब्योरा (रु. लाख में)

		एकल				समेकित			
क्र		31 .12 .2023	31.12.2023	विगत वर्ष		31.12.2023	31.12.2023	विगत वर्ष	(5 2)
सं	. विवरण	को समाप्त	को समाप्त	31.12.2022		को समाप्त	को समाप्त	31.12.2022	
		वर्तमान	नौ	में समाप्त		वर्तमान	नौ	में समाप्त	
		तिमाही	महीने	समान तिमाही	31 .03 .2023		महीने	समान तिमाही	31 .03 .2023
		अलेखा परीक्षित	अलेखा परीक्षित	अलेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित	अलेखा परीक्षित	अलेखा परीक्षित	अलेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
1	परिचालनों से कुल आय	20.47	617.03	8.50	142.94	20.47	617.03	8.50	142.94
2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		4						-
	तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	14.20	41.68	-20.99	-26.85	14.20	41.68	(20.99)	(26.85)
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)								
	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	14.20	41.68	-20.99	-26.85	14.20	41.68	(20.99)	(26.85)
4	4 (1 ((() 11 1 4 (() 1 () () () () () () ()		0	(1	-		- 8		A 2
	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	10.48	30.84	-19.65	-26.69	10.48	30.84	-19.65	(26.69)
5	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय (अवधि		i i	7			i i		
	[करोपरांत) के लिए लाभ/(हानि) सम्मलित) तथा								
	अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत)]	10.48	30.84	-19.65	-26.69	10.48	30.84	-19.65	(26.69)
6	Z	871.45	871.45	871.45	871.45	871.45	871.45	871.45	871.45
7	प्रति शेयर उपार्जन (रु. 10/- प्रत्येक)		ľ	1					7
	(जारी एवं बंद परिचालन के लिए)								15
	1. बेसिक	0.12	0.35	-0.23	-0.31	0.12	0.35	-0.23	-0.31
	2. डाइलूटेड	0.12	0.35	-0.23	-0.31	0.12	0.35	-0.23	-0.31
टि	पणी :		31 93			7.	- 10		1

- 1. ऊपर उल्लिखित ब्यौरा सेबी (सूचीकरण तथा अन्य प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष दायर तिमाही एवं वर्ष से तारीख तक वित्तीय परिणामों का सारांश है। तिमाही एवं वर्ष से तारीख तक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com एवं www.cse-india.com तथा सूचीबद्ध प्रतिष्ठान की वेबसाइट यानी www.sabrimala.co.in पर उपलब्ध है।
- 2. लेखा परीक्षक किमटी द्वारा ब्योरे की समीक्षा की गई है एवं निदेशक मंडल द्वारा 13 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में उसे अनुमोदित कर दिया गया है। संविधिक लेखापरीक्षक द्वारा ऊपर उल्लेखित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।

के लिए तथा उनकी ओर से

सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड

सुरेश कुमार मित्तल (प्रबंध निदेशक)

www.readwhere.com

Chandigar.